



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272487
CG-DL-E-13052026-272487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]
No. 312]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

(भारतीय विधिज्ञ परिषद्)

(भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट)

नई दिल्ली, तारीख 24 सितंबर, 2025

फा. सं. बीसीआई-डी: 1999/2026.— वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ("परिषद्") के 31 मार्च, 2025 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की थी जिसमें तब समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के टिप्पण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन वित्तीय नीतियों का सार और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी सम्मिलित हैं।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित रीति में जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सही और उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

- (क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक के कार्यकलापों की स्थिति,
 (ख) आय और व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष, और
 (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद् के नकदी प्रवाह के बारे में।

राय के आधार

हमने, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार, अपनी लेखा परीक्षा संचालित की थी। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उन नैतिक अपेक्षाओं, जोकि वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत हैं, के अनुसार परिषद् से स्वतंत्र हैं और हमने अपने नैतिक उत्तरदायित्व को इन अपेक्षाओं और नैतिक संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि वह लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने प्राप्त किए हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

परिषद् का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में साधारणतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धान्तों, जिनमें लेखांकन मानक भी हैं, के अनुसार, परिषद् की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन को सही और उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में परिषद् की आस्तियों की सुरक्षा करने के लिए और कपटों के निवारण तथा उनका पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए लागू विधि के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव जो उन लेखांकन अभिलेखों की वास्तविकता तथा संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे; ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने और प्रस्तुत करने से सुसंगत हैं जो सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं और तात्विक मिथ्या कथन, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, भी सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरणों के तैयार करने में, प्रबंधन, एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए और क्या चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग समुचित है और साथ ही चालू समुत्थान से संबंधित विषयों को यदि लागू हो, प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रबंधन परिषद् की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य रहा है कि इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त किया जाए कि क्या वित्तीय विवरण पूर्णतया तात्विक मिथ्या कथन से, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्चस्तर का आश्वासन है किन्तु जो एक ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा में सदैव किसी तात्विक मिथ्या कथन का पता चल जाएगा जब वह विद्यमान होगा। लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा में हर समय वृत्तिक विवेक का प्रयोग किया जाता है और वृत्तिक सन्देह बनाए रखा जाता है। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और तात्विक समझे जाते हैं यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्रतः उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि :—

- (क) हमने उन सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों की वांछा की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, परिषद् द्वारा, विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित किए गए तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुसार हैं।
- (घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते जी. के. केडिया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 013016एन

ह०/-

भागीदार

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 24 सितंबर, 2025

यूडीआईएन 25544129बीएमओआईजीवाई5062

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	अनुसूची सं०	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निधियों के स्रोत :			
पूँजी निधि			
मुख्य निधि	1	1,07,30,445.45	1,07,30,445.45
आरक्षित और आधिक्य	2	6,21,48,96,523.28	5,98,06,65,606.00
आस्तियां निधि (सहायता अनुदान)	3	65,10,694.64	73,04,048.73
अभिनिश्चित निधि	4	69,75,90,036.01	61,03,94,088.89
गैर चालू दायित्व			
लम्बी अवधि के उधार		20,00,000.00	20,00,000.00
अन्य लम्बी अवधि के दायित्व	5	1,18,92,00,056.20	68,01,55,000.00
चालू दायित्व			
अन्य चालू दायित्व	6	2,39,16,652.72	22,24,46,316.92
अल्पकालिक प्रावधान	7	1,35,26,844.00	1,18,21,520.00
योग		8,15,83,71,252.00	7,52,55,17,026.00
निधियों का उपयोजन :			
गैर चालू आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	8	2,42,56,072.12	2,22,99,350.84
अभिनिश्चित निवेश	9	1,87,82,90,091.18	1,46,24,49,089.14
अन्य निवेश	10	5,46,48,02,986.70	5,21,51,66,659.02
चालू आस्तियां			
नकद एवं नकद समकक्ष	11	43,76,23,772.89	38,59,41,971.43
ऋण और अग्रिम	12	3,68,42,435.22	3,86,86,445.03
अन्य चालू आस्तियां	13	31,65,55,894.19	40,09,73,510.54
योग		8,15,83,71,252.00	7,52,55,17,026.00

लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पण

22

अनुसूची 1 से 22 लेखा के अभिन्न अंग हैं ।

सम-संख्यांक तारीख को हमारी परीक्षण विवरण प्ररूप - 10ख के अनुसार

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

कृते जी. के. केडिया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ. आर. नं. 013016एन

ह०/-
उपाध्यक्षह०/-
मुख्य सचिवह०/-
सहायक सचिव
लेखा विभागह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितंबर, 2025

आय और व्यय लेखा

(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	अनुसूची सं०	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
आय			
फीस			
निरीक्षण फीस		1,30,54,14.66.38	1,32,84,09,062.04
नामांकन और अन्य फीस	14	18,81,70,848.64	16,21,58,647.13
परीक्षा फीस	15	36,96,79,100.00	50,19,24,900.00
ब्याज	16	44,55,69,,951.99	32,14,84,888.71
अन्य आय	17	3,60,98,056.00	18,93,05,185.28
		2,34,49,32,023.01	2,50,32,82,683.16
व्यय			
कानूनी शिक्षा व्यय		1,80,25,00,000.00	46,00,00,000.00
परिषद् की गतिविधियों और बैठक पर व्यय	18	14,22,14,456.00	18,82,54,306.86
कर्मचारी सुविधा व्यय	19	10,27,69,771.13	8,19,24,767.82
स्थापन और अन्य व्यय	20	3,41,39,067.81	3,51,04,478.27
परीक्षा व्यय	21	2,52,39,795.00	64,800.00
अवक्षयण	8	38,38,017.60	29,16,791.07
		2,11,07,01,107.54	76,82,65,144.02
वर्ष के अन्तर्गत आरक्षितियों और अधिशेषों में			
अन्तरित अधिशेष/(घाटा)		23,42,30,915.47	1,73,50,17,539.14
लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पण	22		

अनुसूची 1 से 22 लेखा का एक अभिन्न अंग बनाते हैं ।

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

सम-संख्यांक तारीख को तुलन पत्र के साथ हमारे विवरण के अनुसार

कृते जी. के. केडिया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ. आर. नं. 013016एन

ह०/-
उपाध्यक्षह०/-
मुख्य सचिवह०/-
सहायक सचिव
लेखा विभागह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितंबर, 2025

नकद प्रवाह विवरण

(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

विशिष्टियाँ	(रकम रूपयों में)	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
आय		
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
आय एवं व्यय खाते के अनुसार अधिशेष	23,42,30,915.47	1,73,50,17,539.14
गैर-नकद/संचालन मदों के समायोजन के बाद परिचालन से नकद प्रवाह :		
अवक्षयण (परिसंपत्ति कोष में शुद्ध प्रभार)	38,38,017.60	29,16,791.07
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	(41,60,64,284.64)	(30,98,29,981.00)
बचत बैंक (नामांकन) और अन्य पर ब्याज	(2,77,42,826.41)	(1,06,49,655.44)
कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	(4,26,426.93)	(4,22,572.27)
कार्यशील पूंजी और निधियों में परिवर्तन से पहले परिचालन अधिशेष	<u>(20,61,64,604.91)</u>	<u>(1,41,70,32,121.50)</u>
वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा निर्धारित निधि अतिशेष में वृद्धि/(कमी)		
ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	18,44,009.81	1,49,64,061.00
प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	11,20,223.61	(3,24,20,437.56)
अर्जित ब्याज में (वृद्धि)/कमी	8,28,16,959.76	(4,86,23,696.79)
वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में वृद्धि)/(कमी)	(19,68,24,340.20)	(1,97,27,788.08)
वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	<u>0.00</u>	<u>2,91,07,219.60</u>
शुद्ध नकद प्रवाह (उपयोग) (-) संचालन गतिविधियों में	<u>31,72,07,751.93</u>	<u>1,36,03,31,479.67</u>
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
सावधि जमा पर ब्याज	41,60,64,284.64	30,98,29,981.00
बचत बैंक (नामांकन) और अन्य पर ब्याज	2,77,42,826.41	1,06,49,655.44
कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	4,26,426.02	4,22,572.27
वास्तविक परिसंपत्तियों की बिक्री	3,00,000.00	0.00
वास्तविक परिसंपत्तियों की खरीद	(64,07,656.00)	17,84,296.00
गैर-वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	50,90,45,056.20	(33,01,00,000.00)
निवेश :		
i) आरक्षित निधि के विरुद्ध निवेश:		
कल्याण निधि निवेश में (वृद्धि)/कमी	(5,31,75,298.00)	(1,98,57,903.20)
भविष्य निधि निवेश में (वृद्धि)/कमी	(1,79,407.00)	(43,90,583.60)
उपदान निधि निवेश में (वृद्धि)/कमी	(18,76,639.32)	(33,04,761.68)
पेंशन निधि निवेश में (वृद्धि)/कमी	(3,95,35,184.76)	(1,05,53,595.77)
कानूनी शिक्षा निवेश में (वृद्धि)/कमी	5,04,46,186.50	(1,63,37,903.45)

विशिष्टियाँ	(रकम रुपयों में)	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
विधि महाविद्यालयों से सुरक्षा जमा निवेश और नकदीकरण निवेश में वृद्धि	(28,41,06,780.84)	(1,28,11,487.44)
ए.आई.वी.ई. और भा.वि.प.	(9,49,84,461.86)	14,65,73,583.99
ii) अन्य निवेश	<u>(24,96,36,327.68)</u>	<u>(1,46,56,63,967.68)</u>
शुद्ध नकद से/उपयोग निवेश गतिविधियों में (-)	<u>27,41,23,024.31</u>	<u>(1,39,37,60,114.12)</u>
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कल्याण निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	5,31,75,298.00	1,98,57,903.20
भविष्य निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	1,79,407.00	43,90,583.23
उपदान निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	18,76,639.32	33,04,761.68
पेंशन निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	<u>3,95,35,184.76</u>	<u>1,05,53,594.77</u>
शुद्ध नकद से उत्पन्न/उपयोग वित्तपोषण गतिविधियों में (-)	<u>9,47,66,529.08</u>	<u>3,81,06,842.88</u>
नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	5,16,81,801.46	46,78,208.43
वर्ष की शुरुआत में नकद एवं नकद समकक्ष (प्रारंभिक अतिशेष)	38,59,41,971.43	38,12,63,763.00
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष (अन्तिम अतिशेष)	<u>43,76,23,772.89</u>	<u>38,59,41,971.43</u>
नकद और नकद समकक्षों के घटक :		
हाथ नकदी	3,30,867.00	55,485.00
अनुसूचित बैंकों में चालू खाता और बचत खाता में शेष	<u>43,72,92,905.89</u>	<u>38,58,86,486.43</u>
योग	<u>43,76,23,772.89</u>	<u>38,59,41,971.43</u>

यह नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी ए एस-3 के अनुसार तैयार किया गया है।
अनुसूची 1 से 22 लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सम-संख्यांक तारीख को तुलन पत्र के साथ हमारे विवरण के अनुसार

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

कृते जी. के. केडिया एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ. आर. नं. 013016 एन.

ह०/-
उपाध्यक्ष

ह०/-
मुख्य सचिव

ह०/-
सहायक सचिव
लेखा विभाग

ह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितंबर, 2025

प्राप्तियां और भुगतान
(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

प्राप्तियां	रकम (₹.)	भुगतान	रकम (₹.)
प्रारंभिक अतिशेष		चालू आस्तियां और दायित्व	
हाथ नकदी	55,485.00	सावधिक जमा में निवेश	2,26,03,13,553.00
बैंक नकदी	38,58,86,487.43	ऋण एवं अग्रिम	2,76,18,532.00
चालू आस्तियां और दायित्व			
परिपक्व सावधिक जमा	1,99,83,74,060.62	पेंशन फंड में निवेश	3,00,52,785.00
प्रतिभूति निक्षेप	78,20,50,056.20	विविध देनदार कल्याण निधि	30,49,380.00
विविध देनदार w.f.	30,99,380.00	भविष्य निधि निवेश	13,68,796.00
जमा शुल्क अनुशासनिक कमेटी	20,000.00	कर एवं शुल्क	64,56,241.00
वसूली योग्य टी.डी.एस.	2,03,10,432.99	उपदान निधि निवेश	31,08,491.00
स्थिर आस्तियों की बिक्री	3,00,000.00	स्थिर आस्तियों का क्रय	64,07,656.00
प्रत्यक्ष आय		विविध लेनदार भारत का राज्य विधिज्ञ परिषद	22,37,30,995.00
निरीक्षण शुल्क	1,02,60,59,066.38	पूर्वदत्त खर्च	39,178.00
ए.आई.बी.ई. का अंश	36,96,79,100.00	देय लेखा परीक्षा शुल्क	3,51,000.00
पोर्टल रजिस्ट्रीकरण शुल्क	3,49,40,725.00	प्रत्यक्ष व्यय	
कानूनी शिक्षा प्राप्ति-आवेदन शुल्क	4,64,64,805.64	यात्राएं	9,95,11,106.00
विधि विश्वविद्यालयों का कानूनी शिक्षा नियमनीकरण शुल्क	8,92,60,000.00	भा.वि.प. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	37,91,680.00
विदेशी परीक्षा जांच शुल्क	48,24,200.00	कर्मचारी लाभ व्यय	4,66,01,870.24
नामांकन शुल्क	15,84,097.78	कानूनी शिक्षा व्यय	1,80,25,00,000.00
अनुशासनिक कार्यवाही शुल्क	13,93,000.00	संगोष्ठी और सम्मेलन	40,00,000.00
पुनरारंभ अभ्यास शुल्क	2,86,550.00	मुद्रण और लेखन सामग्री	1,05,14,281.00
		दूरभाष व्यय	19,09,590.00
ब्याज और अन्य प्राप्तियां		अप्रत्यक्ष व्यय	
पंजीकरण शुल्क-राज्य	3,45,67,446.78	वाहन	26,74,257.00
सावधिक जमा पर ब्याज	5,53,57,031.67	अंशदान	18,00,000.00
राज्य बचत खाते का ब्याज	85,20,981.41	पानी और बिजली	42,53,209.00
उदभूत ब्याज	11,69,95,727.05	पेंशन निधि अभिदाय खाता	57,46,047.00
प्रकीर्ण आय	5,28,684.00	न्यायालय कार्यवाही	47,82,907.00
बचत खाते का ब्याज	1,92,21,845.00	छुट्टी नगदीकरण	53,28,613.00
स्थानांतरण शुल्क	50,16,646.00	मरम्मत और अनुरक्षण	14,25,597.00
आय कर रिफंड पर ब्याज	13,36,414.01	कार व्यय	5,02,880.00
पुनरीक्षण शुल्क	6,97,965.00	प्रकीर्ण व्यय	14,79,760.43
जरनल सदस्यता शुल्क (भा०वि०प० न्यास पर्ल फर्स्ट)	16,200.00	सम्मान व्यय	58,41,436.00
प्रक्रिया प्रभार	1,18,000.00	डाक और तार	13,91,689.00
कानूनी शिक्षा नियम	16,500.00	कार्यालय व्यय	3,43,519.00
आर० टी० आई० शुल्क	6,410.00	व्यावसायिक प्रभार	2,22,200.00
विशिष्ट पहचान संख्या	55,870.00	छुट्टी यात्रा रियायत	1,85,755.00
		सुरक्षा प्रभार	5,21,560.00
		विज्ञापन और राजपत्र अधिसूचना	1,80,960.00
		बैंक प्रभार-राज्य	4,17,140.54
		जलपान	3,90,593.00
		बीमा	2,45,081.00
		निगम कर	1,72,612.00
		आई०आई०सी० का अंशदान	1,16,820.00

		बैंक प्रभार	31,367.86
		वर्दी व्यय	22,871.00
		पत्र पत्रिकाएं और जरनल	14,461.00
		टी.डी.एस. पर व्याज	2,925.00
		अंत शेष	
		हाथ नकदी	3,30,867.00
		बैंक नकदी	43,72,92,905.89
कुल प्राप्तियां	5,00,70,43,167.96	कुल भुगतान	5,00,70,43,167.96

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

सम-संख्यांक तारीख को तुलन पत्र के साथ हमारे विवरण के अनुसार
कृते जी. के. केडिया एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ. आर. नं. 013016एन

ह०/-
उपाध्यक्षह०/-
मुख्य सचिवह०/-
सहायक सचिव
लेखा विभागह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितंबर, 2025

अनुसूची का विवरण

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
प्रतिभूति निक्षेप एवं अग्रिम शुल्क		
प्रतिभूति निक्षेप ए.एफ.एफ. एल.ई.	1,18,12,00,056.20	39,91,50,000.00
प्रतिभूति निक्षेप (ए.आई.आर. प्राइवेट लिमिटेड)	80,00,000.00	80,00,000.00
बयाना राशि (ए.आई.आर. प्राइवेट लिमिटेड)	0.00	1,00,000.00
	1,18,92,00,056.20	40,72,50,000.00
अन्य देय राशि		
कल्याण निधि	1,00,000.00	50,000.00
जी. के. केडिया	140.00	0.00
	1,00,140.00	50,000.00
विधिज्ञ परिषद् के साथ बचत बैंक खाते का अतिशेष		
केनरा बैंक-6816	3,24,63,794.00	6,24,60,172.30
केनरा बैंक-4273	90,13,314.00	1,09,91,111.00
केनरा बैंक-1050	1,04,39,477.55	1,01,45,695.79
यूको बैंक-132	26,40,378.84	19,56,296.06
केनरा बैंक-06781	9,46,567.02	9,15,534.02
भारतीय स्टेट बैंक-8024 (ए.आई.बी.ई.)	3,99,79,408.35	5,96,461.35
एच.डी.एफ.सी. बैंक-0680 (ए.आई.बी.ई.)	5,03,701.00	5,03,733.00
केनरा बैंक-0239 (भवन अनुदान)	2,47,104.28	2,47,104.28
केनरा बैंक-1065 (विधि शिक्षा)	3,49,747.09	1,66,150.09
केनरा बैंक-0258 (डी.एल.ई.)	1,28,464.00	1,28,464.00

केनरा बैंक-5591	44,025.62	42,582.62
केनरा बैंक-0296	22,932.00	22,932.00
भारतीय डाक	3,880.00	9,072.00
भारतीय स्टेट बैंक-8428 (ए.आई.बी.ई.)	7,404.20	8,053.20
केनरा बैंक-7588	1,38,294.00	0.00
	9,69,28,491.95	8,81,93,361.71
प्रतिभूति निक्षेप – आस्तियां		
प्रतिभूति निक्षेप – विश्वविद्यालय	1,02,00,000.00	1,02,00,000.00
प्रतिभूति निक्षेप बिजली एवं अन्य हेतु	12,30,417.00	12,30,417.00
प्रतिभूति निक्षेप – छात्रावास	3,15,000.00	3,15,000.00
	1,17,45,417.00	1,17,45,417.00
टीडीएस प्राप्तियाँ / आयकर वापसी		
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2024-25	1,12,44,601.02	0.00
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2023-24	0.00	1,07,83,058.00
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2022-23	0.00	95,27,374.99
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2019-20	48,41,219.00	48,41,219.00
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2018-19	8,85,854.00	8,85,854.00
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2017-18	14,27,556.73	14,27,556.73
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2016-17	9,55,033.00	9,55,033.00
प्राप्य टी.डी.एस. वित्त वर्ष 2015-16	21,60,578.00	21,60,578.00
आयकर वापसी (वित्त वर्ष 2015-16)	50,26,400.00	50,26,400.00
	2,65,41,241.75	3,56,07,073.72
अन्य प्राप्तियाँ		
भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास पर्ल फर्स्ट	2,54,79,604.00	1,71,74,604.00
भारतीय विधिज्ञ परिषद्	63,12,497.00	56,50,307.00
आई.आई.यू.एल.ई.आर.	5,450.00	5,450.00
अग्रिम वेतन	0.00	5,86,420.64
अप्रयुक्त टीडीएस	4,025.00	0.00
अग्रिम किराया - जे.जे.के.के. ट्रस्ट	0.00	3,60,836.00
वसूली योग्य राशि - जे.जे.के.के. ट्रस्ट	0.00	69,086.00
	3,18,01,576.00	2,38,46,703.64

अनुसूची – 1

पूँजी निधि

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
मुख्य निधि		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार अतिशेष	1,07,30,445.45	1,07,30,445.45
जोड़िए : वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त मुख्य दान	0.00	0.00
घटाइए : वर्ष के दौरान उपयोग की राशि	0.00	0.00
योग	1,07,30,445.45	1,07,30,445.45

अनुसूची – 2

आरक्षितियां और अधिशेष

पिछले तुलन पत्र के अनुसार आरंभिक अधिशेष	1,48,11,65,604.81	1,14,31,06,590.67
जोड़िए : वर्ष का अधिशेष आय और व्यय लेखा के अनुसार	23,42,30,915.47	1,73,50,17,539.14
जोड़िए : वर्ष के अन्तर्गत विशेष फंड से हस्तांतरण	1,80,25,00,000.00	45,30,41,475.00
घटाइए : वर्ष के अन्तर्गत प्ररूप-10 में दर्ज विशेष फंड से हस्तांतरण	(1,75,50,00,000.00)	(1,85,00,00,000.00)
योग (क)	1,76,28,96,520.28	1,48,11,65,604.81
विशेष फंड		
आरंभिक अतिशेष	4,49,95,00,000.00	3,10,25,41,475.00
जोड़िए : वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आरक्षित और अधिशेष से हस्तांतरित	1,75,50,00,000.00	1,85,00,00,000.00
घटाइए : वर्ष के अन्तर्गत आरक्षित और अधिशेष से हस्तांतरित उपयोगी रकम	(1,80,25,00,000.00)	(45,30,41,475.00)
योग (ख)	4,45,20,00,000.00	4,49,95,00,000.00
योग (क+ख)	6,21,48,96,523.28	5,98,06,65,606.00

अनुसूची – 3

आस्तियां निधि (सहायता अनुदान)

आरंभिक अतिशेष	73,04,049.73	81,89,743.95
घटाइए : वर्ष की अवक्षयण रकम आय और व्यय खाते में हस्तांतरण	(7,93,355.10)	(8,85,695.22)
योग	65,10,694.64	73,04,048.73

अनुसूची - 4

अभिनिसिचत निधियां

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(क) कल्याण निधि		
आरंभिक अतिशेष	32,81,58,920.08	30,39,04,108.08
जोड़िए :		
अधिवक्ताओं से अभिदाय	19,17,003.00	29,84,701.00
रा.वि.प. से अभिदाय	3,08,85,476.00	98,73,645.00
सावधिक जमा पर ब्याज	1,95,66,305.83	1,71,31,326.00
बचत खाते पर ब्याज	3,85,200.00	1,86,830.00
	38,09,12,904.91	33,40,80,610.08
घटाइए :		
अधिवक्ताओं को सहायता	(26,35,000.00)	(59,12,000.00)
भारतीय विधिज्ञ परिषद् में देय भविष्य निधि	4,79,112.00	0.00
अन्य व्यय	(0.00)	(9,690.00)
योग (क)	37,87,57,016.91	32,81,58,920.08
(ख) भविष्य निधि		
आरंभिक अतिशेष	5,88,94,846.60	5,10,57,278.95
जोड़िए : कर्मचारियों का अभिदाय (जैसा कि पूर्व में बताया गया "कर्मचारियों का अनिवार्य अंशदान")	29,63,752.00	29,21,484.00
जोड़िए : कर्मचारियों का अभिदाय (जैसा कि पूर्व में बताया गया "कर्मचारियों का स्वैच्छिक अंशदान")	23,49,900.00	25,16,000.00
जोड़िए : आबंटित ब्याज	30,95,078.90	29,32,567.23
जोड़िए : भविष्य-निधि ब्याज के अभिदाय में कमी	14,16,075.29	13,68,796.42
	6,87,19,652.79	6,07,96,126.60
घटाइए : स्थायी निकासी	(1,12,56,917.00)	(19,01,280.00)
अन्य व्यय	(125.00)	0.00
योग (ख)	5,74,62,610.79	5,88,94,846.60
(ग) उपदान निधि (पी बी ओ और ब्याज बाध्यता)		
आरंभिक अतिशेष (पी बी ओ और ब्याज बाध्यता)	2,78,65,533.10	2,35,50,808.10
जोड़िए : परिषद् से प्राप्त अभिदाय	51,87,537.00	31,08,491.00
सावधिक जमा से प्राप्त ब्याज	13,50,762.62	11,34,120.00
जोड़िए : बचत खाते से प्राप्त ब्याज	85,018.00	72,134.00
	3,44,88,870.72	2,78,65,553.10
घटाइए : अन्य व्यय	39,85,011.02	0.00
योग (ग)	3,05,03,859.70	2,78,65,553.10

विशिष्टियां	(रकम रुपयों में)	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(घ)		
पेंशन निधि (पी बी ओ)		
आरंभिक अतिशेष (पी बी ओ और ब्याज बाध्यता)	19,54,74,769.21	16,88,63,916.42
जोड़िए : अभिदाय/प्रावधान	30,50,544.00	1,32,63,432.00
सावधिक जमा से प्राप्त ब्याज	1,22,49,140.40	76,137.00
जोड़िए : बचत खाते से प्राप्त ब्याज	2,63,447.00	1,04,29,806.79
	21,10,37,900.61	19,26,33,328.21
घटाइए : अतिरिक्त/कमी पी बी ओ का परिवर्तन	2,88,70,350.00	1,00,52,785.00
घटाइए : पूर्व कर्मचारियों/आश्रितों को बैंक प्रभार और टी. डी. एस. (पूर्व वर्ष) का भुगतान	(90,41,702.00)	(72,11,344.00)
योग (घ)	23,08,66,548.61	19,54,74,769.21
कुल योग (क+ख+ग+घ)	69,75,90,036.01	61,03,94,088.89

अनुसूची – 5

अन्य लम्बी अवधि के दायित्व

प्रतिभूति निक्षेप	1,18,92,00,056.00	40,72,50,000.00
अग्रिम प्राप्त निरीक्षण फीस	0.00	27,29,05,000.00
योग	1,18,92,00,056,20.00	68,01,55,000.00

अनुसूची – 6

अन्य चालू दायित्व

		(रकम रुपयों में)	
विशिष्टियां		31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(क) संदेय व्यय		3,78,000.00	3,50,500.00
संदेय संपरीक्षक फीस		1,00,140.00	50,000.00
अन्य संदेय		0.00	19,84,91,200.00
ए.आई.बी.ई. (एस.टी.बी.सी)	योग (क)	4,78,140.00	19,88,91,700.00
(ख) कानूनी देय			
संदेय पेंशन निधि (बीमांकिक)		87,49,368.68	99,31,804.00
कल्याण निधि में देय संदेय (टी. डी. एस.)		39,66,143.33	34,08,316.65
संदेय उपदान निधि अंशदान (बीमांकिक)		51,87,537.00	31,08,491.00
भविष्य निधि अभिदाय		14,16,074.78	13,68,795.90
पेंशन निधि में देय (टी. डी. एस.)		4,66,985.00	1,33,860.00
भविष्य निधि में देय (टी. डी. एस.)		2,05,469.28	51,319.72
उपदान निधि में देय (टी. डी. एस.)		12,907.00	0.00
संदेय (टी. डी. एस.)		35,000.00	7,702.00
	योग (ख)	2,00,39,485.07	1,80,10,289.27
(ग) अन्य संदेय			
अनुशासनिक बैठक जमा फीस		33,99,027,65.00	33,79,027.65
अग्रिम रूप से प्राप्त विशिष्ट पहचान संख्या फीस		0.00	21,65,300.00
	योग (ग)	33,99,027,65	55,44,327.65
	कुल योग (क+ख+ग)	2,39,16,652.72	22,24,46,316.92

अनुसूची – 7

अल्पकालिक प्रावधान

छुट्टी का नकद भुगतान के लिए प्रावधान	1,35,26,844.00	1,18,21,520.00
	1,35,26,844.00	1,18,21,520.00

अनुसूची-8

स्थिर आस्तियां - स्वयं की निधियां

(रकम रुपयों में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	अवक्षयण की दर (%प्रति वर्ष)	सकल ब्लाक				अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक		
			1 अप्रैल 2024 को (1)	संवर्धन		विक्रय/लोप/ समायोजन (3)	31 मार्च, 2025 को (4)=(1)+(2)-(3)	1 अप्रैल, 2024 को (5)	2024-2025 वर्ष के लिए (6)	समायोजित (7)	31 मार्च, 2025 को (8)=(5)+(6)-(7)	31 मार्च, 2025 को (9)=(4)-(8)	31 मार्च, 2024 को (10) (1)-(5)
				03-10-2024 से पहले	03-10-2024 के बाद								
1.	भूमि		42,030	0.00	0.00	0.00	42,030	0.00	0.00	0.00	0.00	42,030	42,030
2.	भवन	10%	2,07,52,598	0.00	0.00	0.00	2,07,52,598	1,82,78,506	2,47,409.22	0.00	1,85,25,915	22,26,683.95	24,74,092
3.	नवीनीकरण के लिए भवन किराया	10%	7,68,110	0.00	0.00	0.00	7,68,110	4,16,991	35,111.93	0.00	4,52,103	3,16,007.41	3,51,119
4.	लिफ्ट	15%	27,40,362	0.00	0.00	0.00	27,40,362	23,00,078	66,042.59	0.00	23,66,121	3,74,241.32	4,40,284
5.	फर्नीचर और फिक्सचर	10%	74,81,290	25,724.00	1,03,330	0.00	76,10,344	45,31,019	3,02,766.02	0.00	48,33,785	27,76,559.14	29,50,271
6.	बिजली की फिटिंग	10%	11,95,596	0.00	0.00	0.00	11,95,596	9,12,013	28,358.33	0.00	9,40,371	2,55,225.97	2,83,583
7.	कार्यालय उपस्कर	15%	29,00,018	6,535	14,45,877	0.00	43,52,430	16,36,295	2,98,979.52	0.00	19,35,274	24,17,155.77	12,63,723
8.	एयर कंडीशनर/कूलर	15%	52,54,576	1,69,482.00	0.00	0.00	54,24,058	43,82,368	1,56,253.51	0.00	45,38,621	8,85,436.56	8,72,208
9.	रेफ्रिजरेटर/गैस	15%	34,480	0.00	0.00	0.00	34,480	32,957	228.44	0.00	33,185	1,294.51	1,523
10.	कार्यालय साइकल	15%	16,006	0.00	0.00	0.00	16,006	13,213	418.98	0.00	13,632	2,374.23	2,793
11.	पुस्तकें और प्रकाशन	40%	3,67,012	5,23,551.98	26,031.00	0.00	9,16,595	3,09,504	2,37,630.15	0.00	5,47,134	3,69,460.73	57,507.90
12.	कम्प्यूटर/लैपटॉप	40%	1,08,49,008	18,66,951	15,25,389	0.00	1,42,41,348	88,82,025	18,38,651.36	0.00	1,07,20,676	35,20,671.54	19,66,983
13.	वाटर कूलर	15%	1,10,948	0.00	0.00	0.00	1,10,948	1,03,818	1,069.53	0.00	1,04,887	6,060.68	7,130
14.	ट्रांसफार्मर	15%	10,69,846	0.00	33,040.00	0.00	11,02,886	10,51,812	5,183.14	0.00	10,56,995	45,891.15	18,034
15.	इनोवा कार	15%	60,44,854	0.00	0.00	3,00,000.00	57,44,854	36,28,866	3,17,398.18	0.00	39,46,264	17,98,589.69	24,15,988
16.	अग्निशामन उपस्कर	15%	25,94,475	0.00	0.00	0.00	25,94,475	20,11,319	87,473.33	0.00	20,98,793	4,95,682.21	5,83,156
17.	एलसीडी/सी.सी.टी.वी./डिजिटल कैमरा	15%	10,80,727		0.00	0.00	10,80,727	5,21,397	83,899.44	0.00	6,05,297	4,75,430.18	5,59,330
18.	जनरेटर	15%	10,67,979	0.00	0.00	0.00	10,67,979	7,95,542	40,865.53	0.00	8,36,408	2,31,571.31	2,72,437
19.	गीजर	15%	19,000	0.00	0.00		19,000	2,138	2,529.38	0.00	4,667	14,334.13	16,864
20.	एस्टीगा कार	15%		0.00	11,47,291.00		11,47,291		86,046.83	0.00	86,047	10,61,244.18	
21.	एल ई डी टी वी	15%		7,808.00	7,080.00		14,888		1,702.20	0.00	1,702	13,186.80	
	योग (क)		6,43,88,915	26,00,052	42,88,038	3,00,000.00	7,09,77,005	4,98,09,860	38,38,018	0.00	5,36,47,878	1,73,29,131.43	1,45,79,056

अनुसूची-8क
स्थिर आस्तिया/सहायक अनुदान

(रकम रुपयों में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	अवक्षयण की दर (%प्रति वर्ष)	1 अप्रैल 2024 को (1)	सकल ब्लाक		विक्रय/लोप/समायोजन (3)	31 मार्च, 2025 को (4) = (1) + (2) - (3)	1 अप्रैल, 2024 को (5)	अवक्षयण			शुद्ध ब्लाक	
				संवर्धन					2024-2025 वर्ष के लिए (6)	समायोजित (7)	31 मार्च, 2025 को (8) = (5) + (6) - (7)	31 मार्च, 2025 को (9) = (4) - (8)	31 मार्च, 2024 को (10) (1) - (5)
				03-10-2024 से पहले	03-10-2024 के बाद								
	पूर्व वर्ष (क)		6,26,04,620	6,49,472	11,34,823	--	6,43,88,915	4,68,93,069	29,16,791	0.00	4,98,09,859.95	1,45,79,056	1,57,11,555
1.	भवन नवीनीकरण	10%	2,26,65,982	0.00	0.00	0.00	2,26,65,982	1,66,23,066	6,04,292	0.00	1,72,27,358	54,38,624.0	60,42,916
2.	फर्नीचर और फिटिंग	10%	1,84,625	0.00	0.00	0.00	1,84,625	1,55,347	2,928	0.00	1,58,275	26,349.8	29,278
3.	एयर कंडीशनर/कूलर	15%	32,95,129	0.00	0.00	0.00	32,95,129	28,68,910	63,933	0.00	29,32,843	3,62,286.2	4,26,219
4.	कम्प्यूटर	40%	9,78,674	0.00	0.00	0.00	9,78,674	9,78,625	20	0.00	9,78,644	29.5	49
5.	बिजली की फिटिंग	10%	45,53,841	0.00	0.00	0.00	45,53,841	33,32,009	1,22,183	0.00	34,54,192	10,99,651.2	12,21,834
	योग (ख)		3,16,78,251	0.00	0.00	0.00	3,16,78,251	2,39,57,957	7,93,355	0.00	2,47,51,312	69,26,940.69	77,20,296
	पूर्व वर्ष (ख)		3,19,65,155	0.00	0.00	0.00	3,19,65,155.00	2,33,59,166	8,85,695	0.00	2,42,44,861.21	77,20,296	86,05,989
	योग (क+ख)		9,60,67,166		68,88,090	3,00,000.00	10,26,55,256	7,37,67,817	46,31,373	0.00	7,83,99,190	2,42,56,072	2,22,99,352
	पूर्व वर्ष (क+ख)		9,45,69,775		17,84,295	—	9,63,54,070	7,02,52,235	38,02,486	0.00	7,40,54,721	2,22,99,351	2,43,17,544

अनुसूची - 9

निवेश

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(अ) अभिनिश्चित निधियों के प्रति		
(क) कल्याण निधि निवेश		
यूको बैंक में सावधिक जमा	21,06,77,277.00	16,49,18,423.00
केनरा बैंक में सावधिक जमा	8,01,71,733.80	7,43,37,186.80
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	3,18,75,342.00	3,18,75,342.00
इंडियन बैंक में सावधिक जमा	1,80,45,115.00	1,70,06,287.00
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	91,01,418.00	85,58,349.00
सावधिक जमाओं पर उद्भूत ब्याज	1,62,35,215.94	2,09,02,034.79
यूको बैंक बचत खाता सं. 9363 में अतिशेष	85,69,772.25	71,37,981.25
नकद अतिशेष	15,000.00	15,000.00
	<u>37,46,90,873.99</u>	<u>32,47,50,603.84</u>
जोड़िए : भा. वि. प. से प्राप्य रकम	40,66,143.33	34,08,316.65
योग (क)	<u>37,87,57,0107.32</u>	<u>32,81,58,920.49</u>
(ख) भविष्य निधि निवेश		
यूको बैंक में सावधिक जमा	3,77,22,368.00	3,82,87,118.00
केनरा बैंक में सावधिक जमा	1,09,85,941.07	1,02,41,784.07
यूको बैंक में विशेष जमा	11,90,217.00	11,90,217.00
सावधिक जमाओं पर उद्भूत ब्याज	26,98,616.66	31,90,333.32
यूको बैंक बचत खाता 261025 में अतिशेष	25,85,190.54	39,77,262.54
	<u>5,51,82,333.27</u>	<u>5,68,86,714.93</u>
जोड़िए : भविष्य निधि ऋण	(3,05,087.81)	1,03,308.29
जोड़िए : भा. वि. प. से प्राप्य रकम (प्राप्य ब्याज में न्यूनता और टी. डी. एस.)	16,21,544.13	14,20,115.28
जोड़िए : कल्याण निधि से प्राप्य रकम	9,59,020.00	4,79,908.00
जोड़िए : नकद अतिशेष	4,800.00	4,800.00
योग (ख)	<u>5,74,62,609.59</u>	<u>5,88,94,846.50</u>
(ग) उपदान निधि निवेश		
यूको बैंक में सावधिक जमा	2,04,79,082.00	1,87,47,853.00
केनरा बैंक में सावधिक जमा	21,68,978.32	20,23,568.00
यूको बैंक में विशेष जमा	3,18,433.00	3,18,433.00
सावधिक जमाओं पर उद्भूत ब्याज	13,72,477.92	14,41,739.32
यूको बैंक बचत खाता संख्या 440 में अतिशेष	9,64,444.58	22,25,468.58
	<u>2,53,03,415.82</u>	<u>2,47,57,061.90</u>
जोड़िए : भा. वि. प. से प्राप्य रकम (प्राप्य बीमांकिक और टी. डी. एस.)	52,00,444.00	31,08,491.00
योग (ग)	<u>3,05,03,859.82</u>	<u>2,78,65,552.90</u>

विशिष्टियां	31 मार्च 2025 को	(रकम रुपयों में) 31 मार्च 2024 को
पेंशन निधि निवेश		
केनरा बैंक में सावधिक जमा	17,12,88,550.20	13,51,78,956.44
यूको बैंक में सावधिक जमा	2,86,78,250.00	2,58,30,475.00
सेंट्रल बैंक में सावधिक जमा	96,83,774.00	91,05,958.00
सावधिक जमाओं पर उद्भूत ब्याज	87,90,212.31	94,09,381.67
केनरा बैंक बचत खाता संख्या 19116 में अतिशेष	32,09,407.06	58,84,333.06
	22,16,50,193.57	18,54,09,104.17
जोड़िए : भा. वि. प. से प्राप्य रकम (प्राप्य बीमांकिक और टी. डी. एस.)	92,16,354.68	(1,00,65,665.08)
योग (घ)	23,08,66,548.25	19,54,74,769.25
योग (अ) (क+ख+ग+घ)	69,75,90,034.98	61,03,94,089.14
अभिनियमित दायित्व के प्रति		
विधिक शिक्षा के लिए (अग्रिम प्राप्त निरीक्षण फीस)		
केनरा बैंक	8,00,76,587.36	6,86,08,808.56
भारतीय स्टेट बैंक	4,20,52,955.70	3,93,66,120.00
सेंट्रल बैंक	0.00	71,76,019.00
यूको बैंक	0.00	4,29,87,406.00
इंडियन बैंक	0.00	1,44,37,376.00
	12,21,29,543.06	17,25,75,729.56
जोड़िए/(घटाइए) : विधिक शिक्षा के लिए सावधिक जमा में अनाबंटित निवेश(अनुसूची-10)	(12,21,29,543.06)	28,03,29,270.44
योग (क)	0.00	45,29,05,000.00
विधि महाविद्यालयों से (संबद्धता) के लिए प्रतिभूति निक्षेप		
केनरा बैंक	47,28,50,474.23	20,22,82,684.39
यूको बैंक	8,76,53,911.00	7,86,80,765.00
इंडियन बैंक	3,17,18,629.00	2,82,86,429.00
भारतीय स्टेट बैंक	2,28,70,575.00	2,28,70,575.00
सेन्ट्रल बैंक	1,89,99,062.00	1,78,65,417.00
	63,40,92,651.23	34,99,85,870.39
जोड़िए/(घटाइए) : विधि महाविद्यालयों के लिए अनाबंटित प्रतिभूति निक्षेप (अनुसूची-10)	54,66,07,404.97	4,91,64,129.61
योग (ख)	1,18,07,00,056.20	39,91,50,000.00
योग (आ) = (क+ख)	1,18,07,00,056.20	85,20,55,000.00
कुल योग = (अ+आ)	1,87,82,90,091.18	1,46,24,49,089.14

अनुसूची – 10

अन्य निवेश

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां 2024 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च
भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लिए बैंकों में सावधिक जमा		
केनरा बैंक	4,64,98,40,246.78	4,08,70,85,723.72
भारतीय स्टेट बैंक	60,74,42,390.00	78,21,69,207.00
यूको बैंक	57,99,82,001.00	61,01,88,849.00
इंडियन बैंक	5,20,16,212.00	5,40,96,569.00
सेंट्रल बैंक	0.00	1,11,19,710.00
	<u>5,88,92,80,849.78</u>	<u>5,54,46,60,058.72</u>
जोड़िए/(घटाइए) : विधिक शिक्षा के लिए सावधिक जमा से हस्तांतरण (अनुसूची-9 ख)	12,21,29,543.06	(4,91,64,129.61)
जोड़िए/(घटाइए) : प्रतिभूति निक्षेप के लिए सावधिक जमा से हस्तांतरण (अनुसूची-9 ख)	(54,66,07,404.97)	(28,03,29,270.44)
योग	<u>5,46,48,02,986.70</u>	<u>5,21,51,66,659.02</u>

अनुसूची – 11

नकद और नकद समतुल्य

नकद अतिशेष	3.30,867.00	55,485.00
बैंक अतिशेष		
राज्य विधिज्ञ परिषद के बैंकों के बचत खाते में अतिशेष	34,03,64,413.94	29,76,93,,125.72
विधिज्ञ परिषद के बैंकों के बचत खाते में अतिशेष	9,69,,28,491.95	8,81,93,361.71
योग	<u>43,76,23,772.89</u>	<u>38,59,41,971.43</u>

अनुसूची – 12

ऋण और अग्रिम

वसूली योग्य अग्रिम	1,43,18,019.00	1,36,09,403.00
सदस्यों को ऋण	8,42,165.00	13,59,803.00
कर्मचारियों को ऋण	99,36,834,,22	1,19,71,822.03
प्रतिभूति निक्षेप	1,17,45,417.00	1,17,45,417.00
योग	<u>3,68,42,435,,22</u>	<u>3,86,86,445.03</u>

अनुसूची – 13

अन्य चालू आस्तियां

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क) निवेशों पर उद्भूत ब्याज	25,80,37,721.24	34,08,54,681.00
योग (क)	25,80,37,721.24	34,08,54,681.00
(ख) लागत पर पुस्तकों का स्टॉक (प्रबन्धक मण्डल द्वारा यथा प्रमाणित)	0.00	4,80,433.98
योग (ख)	0.00	44,80,433.98
(ग) वसूली योग्य रकम टी.डी.एस. वसूली योग्य/आय कर रिफंड अन्य प्राप्तियां राज्य विधिज्ञ परिषद से भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम व्यय	2,65,41,241.75 3,18,01,576.00 81,314.20 54,863.00 39,178.00	3,56,07,073.72 2,38,46,703.64 81,314.20 54,863.00 48,442.00
योग (ग)	5,85,18,172.95	5,96,38,396.56
कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ)	31,65,55,894.19	40,09,73,510.54

अनुसूची – 14

नामांकन और अन्य फीस

(क) अधिवक्ताओं से फीस नामांकन फीस सदस्यता स्थानांतरण फीस विधि व्यवसाय फीस का पुनरारंभ	3,61,51,510.00 50,16,648.00 2,86,550.00	4,88,65,278.04 24,55,350.00 2,38,000.00
योग (क)	4,14,54,708.00	5,15,58,628.04
(ख) अन्य फीस विधि विद्यालयों से विधिक शिक्षा के नियमितीकरण की फीस विधिक शिक्षा प्रारूप आवेदन फीस विदेशी परीक्षा जांच फीस विशिष्ट पहचान संख्या अनुशासनात्मक कार्यवाही फीस पुनरीक्षण परीक्षा फीस	9,08,60,000.00 4,67,19,805.64 48,24,200.00 22,21,170.00 13,93,000.00 6,97,965.00	3,16,50,500.00 7,35,60,499.09 42,00,000.00 0.00 8,32,945.00 3,56,075.00
योग (ख)	14,67,16,140.64	11,06,00,019.09
कुल योग (क)+(ख)	18,81,70,848.64	16,21,58,647.13

अनुसूची – 15

परीक्षा फीस

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस—XIX	36,96,79,100.00	0.00
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस—XVIII	0.00	22,94,28,700.00
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस—XVII	0.00	27,24,96,200.00
योग	36,96,79,100.00	50,19,24,900.00

अनुसूची – 16

ब्याज

सावधिक जमा पर ब्याज	41,60,64,284.64	30,98,29,981.00
बचत खाते पर ब्याज	1,92,21,845.00	26,92,785.00
बचत खाते (राज्य नामांकन) पर ब्याज	85,20,981.41	79,56,870.44
आय कर रिफंड पर ब्याज	13,36,414.01	5,82,680.00
ऋण और अग्रिमों पर ब्याज (कर्मचारी)	4,26,426.93	4,22,572.27
योग	44,55,69,951.99	32,14,84,888.71

अनुसूची – 17

अन्य आय

पोर्टल पंजीकरण शुल्क	3,49,40,725.00	13,50,64,624.58
अन्य प्रकीर्ण आय	9,92,603.00	51,81,427.98
प्रक्रिया शुल्क	1,18,000.00	64,000.00
मकान किराया भत्ता वसूली	46,728.00	0.00
स्मारिका लेख और विज्ञापन	0.00	4,83,24,000.00
पंजीकरण फीस	0.00	6,58,000.00
बट्टे खाते का शेष	0.00	13,132.72
योग	3,60,98,056.00	18,93,05,185.28

अनुसूची – 18

परिषद् के कार्यकलापों और बैठकों पर व्यय

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(क) यात्रा व बैठकों पर व्यय		
यात्रा-परिषद्	4,78,31,947.00	5,62,75,362.00
विदेश यात्रा व्यय	2,50,28,242.00	2,37,41,580.00
यात्रा-अनुशासनिक समिति बैठक	1,51,31,996.00	1,22,73,474.00
बैठक व्यय	1,44,81,004.00	1,58,45,652.74
यात्रा निरीक्षण	1,28,15,753.00	71,51,571.00
परिषद् यात्रा गोवा	50,55,642.00	60,42,623.00
यात्रा-विधिक शिक्षा बैठक	36,89,115.00	21,07,046.00
अतिथि कक्ष व्यय	23,89,891.00	12,63,144.00
यात्रा-निगरानी समिति	95,930.00	0.00
योग (क)	12,65,19,520.00	12,47,00,452.74
(ख) अन्य व्यय		
संगोष्ठी, सेमीनार और कार्यशाला व्यय	79,26,680.00	5,75,05,684.00
सम्मान समारोह व्यय	58,51,436.00	18,55,252.00
रा० वि० प० को अभिदाय /वित्तीय सहायता	18,00,000.00	38,95,850.00
आई०बी०ए०/आई०आई०सी० का अंशदान	1,16,820.00	2,97,068.12
योग (ख)	1,56,94,936.00	6,35,53,854.12
कुल योग (क+ख)	14,22,14,456.00	18,82,54,306.86

अनुसूची – 19

कर्मचारी सुविधा व्यय

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वेतन व्यय	5,06,58,259.00	4,59,53,065.00
पेंशन निधि खाते में परिषद् का अभिदाय	3,19,20,893.60	2,33,16,217.00
उपदान निधि खाते में परिषद् का अभिदाय	51,87,537.00	31,08,491.00
छुट्टी नकद भुगतान	70,33,937.00	22,43,061.00
चिकित्सा भत्ते	21,78,692.00	20,74,711.00

चिकित्सीय बीमा	12,38,228.24	13,74,670.40
भविष्य निधि लेखा में परिषद् का अभिदाय	14,16,075.29	13,68,796.42
बाल शिक्षा भत्ता	12,54,594.00	9,71,686.00
सहायक भत्ता	9,35,800.00	9,38,400.00
छुट्टी यात्रा रियायत	1,85,755.00	5,75,670.00
विशेष प्रतिपूरक भत्ता	1,40,000.00	0.00
वजीफा	6,20,000.00	0.00
योग	10,27,69,771.13	8,19,24,767.82

अनुसूची – 20

स्थापन और अन्य व्यय

मुद्रण और लेखन सामग्री	1,05,14,281.00	18,50,480.00
विधिक और वृत्तिक व्यय	50,05,107.00	32,27,477.00
बिजली और पानी	42,53,209.00	36,27,195.00
प्रकीर्ण व्यय	38,93,140.51	22,67,541.85
वाहन प्रभार	26,79,357.00	57,39,817.00
सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण	14,25,597.00	22,42,450.00
डाक महसूल, तार और टेलीफोन	19,31,590.03	14,18,451.90
महाविद्यालय पर व्यय	11,12,428.00	1,08,22,974.00
सुरक्षा प्रभार	5,21,560.00	5,38,670.00
सुधार और अनुरक्षण	5,02,880.00	5,24,688.00
बैंक प्रभार	4,48,507.27	3,41,554.52
संपरीक्षक पारिश्रमिक	4,13,000.00	3,83,500.00
जलपान	3,90,593.00	2,42,419.00
कार्यालय व्यय	3,43,519.00	0.00

विशिष्टियां	(रकम रुपयों में)	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
बीमा-प्रीमियम	3,32,701.00	1,94,096.00
विज्ञापन व्यय	1,80,960.00	3,71,764.00
शुल्क और कर	1,72,612.00	1,72,612.00
पत्र-पत्रिकाएं और जरनल	14,461.00	13,124.00
टी. डी. एस. पर ब्याज	2,925.00	0.00
कानूनी दस्तावेज व्यय	640.00	0.00
उद्घाटन समारोह	0.00	5,65,484.00
सरवर अनुरक्षण शुल्क	0.00	60,180.00
योग	3,41,39,067.81	3,51,04,478.27

अनुसूची – 21

परीक्षा व्यय

अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा—XVI	2,52,39,795.00	0.00
विदेशी परीक्षा व्यय	0.00	64,800.00
योग	2,52,39,795.00	64,800.00

अनुसूची - 22

लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पण

[31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के अनुसार]

सामान्य

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ("परिषद्") भारत की संसद् द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन सृजित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् का उद्देश्य भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित भारत में विधि व्यवसाय का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रोत्साहन तथा विधिक शिक्षा का विनियमन हैं और इसकी आय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 7 के अनुसार उपयोग की जाती है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत है।

(क) लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराओं के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार बनाए गए हैं और जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोद्भवमान आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. राजस्व की मान्यता

निम्नलिखित आय और व्यय को छोड़कर, नकद आधार पर मान्यता दी जाती है :-

(क) विशेष निधि अर्थात् पेंशन निधि, भविष्य निधि, और उपदान निधि से संबंधित वर्तमान लाभ दायित्व और/या ब्याज घटक को प्रोद्भवमान आधार पर संबंधित निधि खाते में जमा कर दिए जाने के बाद मान्यता दी जाती है।

(ख) निवेश से आय सावधिक निक्षेप पर ब्याज को बकाया राशि की रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए कालिक अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3. सहायता अनुदान

(क) अनुदानों को आय और व्यय लेखा में संबंधित लागतों के साथ मिलान करने लिए, जिनकी वे सरकारी भरपाई करना चाहते हैं, उन अवधियों पर सुव्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है। अप्रयुक्त रकम को, यदि कोई हो, वर्ष के अन्त में दायित्व के रूप में माना जाता है।

(ख) विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाता है जिसे लेखा में आस्तियों के उपयोगी होने तक व्यवस्थित और युक्तिमूलक आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. निधि

"निधि" शब्द का प्रयोग इस आशय को प्रकट करने के लिए किया गया है कि अतिशेष अंततः निवेश किए जाने के लिए रखे गए हैं :-

(i) मुख्य निधि

मुख्य निधि विधि महाविद्यालयों और दूसरों से प्राप्त दान को तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के 31 मार्च, 1999 तक वार्षिक बचत/घाटे को व्यपदिष्ट करती है।

(ii) कल्याण निधि

कल्याण निधि से भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के अनुसार अधिवक्ताओं से प्राप्त अभिदाय को व्यपदिष्ट करती है और इसका उपयोग अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के लिए किया जाता है।

5. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को संचयित अवक्षयण से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर स्थिर आस्तियों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए लागत में अर्जन के अंतर्गत ऐसी आस्तियों के अर्जन/संनिर्माण से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क, कर और आनुषंगिक व्यय तथा प्रत्यक्ष व्यय भी सम्मिलित हैं।

6. अवक्षयण

स्थिर आस्तियों पर अवक्षयण खुदरा मूल्य पद्धति के आधार पर आय-कर नियम के अधीन निहित दरों पर दिया जाता है।

7. निवेश

निवेशों को "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें लागत आधार पर अग्रणीत किया जाता है क्योंकि सभी निवेश अनुसूचित बैंकों में सावधिक निक्षेपों के रूप में रखे गए हैं।

8. सेवा निवृत्ति फायदे

(i) पेंशन निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के पेंशन-सह-कुटुंब पेंशन नियम 1 अप्रैल, 2002 से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए हैं। तदनुसार, "भारतीय विधिज्ञ परिषद् अभिदायी भविष्य निधि" को बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर पेंशन निधि आरंभ की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में इसके पूर्व किए गए अभिदाय और उपगत ब्याज को पेंशन निधि में अंतरित कर दिया गया है।

परिषद् के विनिश्चय के अनुसार पेंशन निधि अभिदाय 10,000/- रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त रकम सहित मूल वेतन का 12% की दर पर मासिक आधार पर किया जाता है। तथापि पी0 वी0 सी0 पद्धति के अधीन बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार प्रोद्भूत दायित्वों का अवधारण कर्मचारी प्रसुविधा संबंधी अधिसूचित लेखा मानक (पुनरीक्षित)-15 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है तथा अन्तरिम उपबंध/उत्क्रमण वर्ष के अन्त में किया जाता है।

(ii) उपदान निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने "उपदान निधि" नामक एक विशेष निधि रखी है। इस निधि में अंशदान आई०सी०ए०आई० के एएस-15 के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। निधि परिषद् द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा प्रशासित की जाती है।

(iii) साधारण भविष्य निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों का साधारण भविष्य निधि खाता वेतन को लागू दर पर कर्मचारियों के अंश की रकम के साथ उस पर स्वैच्छिक अभिदाय और उद्भूत ब्याज सहित जमा राशि को व्यपदिष्ट करता है।

(iv) छुट्टी का नगद भुगतान

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों/केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार 300 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए न ली गई छुट्टी के लिए उपबंध मूल वेतन और महंगाई भत्तों पर विचार करके वर्ष में 30 दिन के लिए प्रोद्भवमान आधार पर बनाए गए हैं।

इस निधि का प्रावधान आई०सी०ए०आई० के एस-15 के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) लेखाओं पर टिप्पण

1. आय कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 3(1) के अधीन पत्र सं. जेपी-1 (6)/63/3332, तारीख 25 दिसम्बर, 1965 (1965-1966 का आदेश सं. 1) के अनुसार, भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त हुई है।
2. सहबद्ध संस्थाओं से ₹ 1,18,00,056 के प्रतिपूर्ति निक्षेप को तुलन पत्र की अनुसूची सं. 9ख में कथन किए गए अनुसार उक्त राशि के बैंक के पास सावधि जमा के रूप में निरूपित किया गया है।
3. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची सं. 1 से 22 लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सम-संख्यांक तारीख को तुलन पत्र के साथ हमारे विवरण के अनुसार

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

कृते जी. के. केडिया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ.आर. नं. 013016एन

ह०/-
उपाध्यक्ष

ह०/-
मुख्य सचिव

ह०/-
सहायक सचिव
लेखा विभाग

ह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितंबर, 2025

श्रीमंतो सेन, प्रधान सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./84/2026-27]

BAR COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2026

BAR COUNCIL OF INDIA**(Independent Auditor's Report)**

(TO THE MEMBERS OF THE BAR COUNCIL OF INDIA)

New Delhi, the 24th September, 2025

F. No. BCI:D: 1999/2026.—REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS**OPINION**

We have audited the accompanying Financial Statements of the *BAR COUNCIL OF INDIA* (“the Council”), as at March 31, 2025, which comprise the Balance Sheet and Income & Expenditure Account for the year then ended, and Notes to the Financial Statements, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information for the year ended 31st March, 2025.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Advocates Act, 1961 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

- (a) In the case of the Balance Sheet, of the State of Affairs as at March 31, 2025 and
- (b) In the case of the Income & Expenditure Account, Surplus for the year ended on that date.
- (c) In the case of Cash Flow Statement, of the cash flow of the Council for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing (SAs) specified by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Council in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules there under, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Management of the Council is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Council in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable law for safeguarding of the assets of the Council and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern and whether the use of the going concern basis of accounting is appropriate as well as disclosing, if applicable, matters relating to going concern.

The Management is also responsible for overseeing the Council's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, professional judgment is exercised and professional skepticism is maintained throughout the audit. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

We report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law has been kept by the Council so far as it appears from our examination of those books.
- (c) The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 013016N

Place : New Delhi
Date : 24th September, 2025
M. No. 544129

Sd/-
Partner

UDIN: 25544129BMOIGY5062

BALANCE SHEET*(As at 31st March, 2025)***(Amount in ₹)**

PARTICULARS	Schedule No.	As At	As At
		March 31, 2025	March 31, 2024
SOURCES OF FUNDS:			
Capital Fund			
- Corpus Fund	1	1,07,30,445.45	1,07,30,445.45
- Reserves & Surplus	2	6,21,48,96,523.28	5,98,06,65,606.00
- Assets Fund (Grants-in-Aid)	3	65,10,694.64	73,04,048.73
- Earmarked Funds	4	69,75,90,036.01	61,03,94,088.89
Non Current Liabilities			
- Long Term Borrowings		20,00,000.00	20,00,000.00
- Other Long Term Liabilities	5	1,18,92,00,056.20	68,01,55,000.00
Current Liabilities			
- Other Current Liabilities	6	2,39,16,652.72	22,24,46,316.92
- Short Term Provisions	7	1,35,26,844.00	1,18,21,520.00
	TOTAL	8,15,83,71,252.00	7,52,55,17,026.00
APPLICATION OF FUNDS:			
Non Current Assets			
-Fixed Assets	8	2,42,56,072.12	2,22,99,350.84
-Earmarked Investments	9	1,87,82,90,091.18	1,46,24,49,089.14
-Other Investments	10	5,46,48,02,986.70	5,21,51,66,659.02
Current Assets			
-Cash & Cash Equivalents	11	43,76,23,772.89	38,59,41,971.43
-Loans & Advances	12	3,68,42,435.22	3,86,86,445.03
-Other Current Assets	13	31,65,55,894.19	40,09,73,510.54
	TOTAL	8,15,83,71,252.00	7,52,55,17,026.00
Accounting Policies and Notes to Accounts	22		

SCHEDULES 1 TO 22 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS

As per our report of even date annexed with Audit Report in Form-10B**For & on behalf of the Bar Council of India****For G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016NSd-
Vice-ChairmanSd-
Principal SecretarySd-
Assistant Secretary
Accounts DepartmentSd-
Partner
M. No. 544129

Place : New Delhi

Date : 24th September, 2025

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT*(For The Year Ended March 31, 2025)***(Amount in ₹)**

PARTICULARS	Schedule No.	As At	As At
		March 31, 2025	March 31, 2024
INCOME			
Fees			
- Inspection Fees		1,30,54,14,066.38	1,32,84,09,062.04
- Enrollment and other Fees	14	18,81,70,848.64	16,21,58,647.13
- Examination Fees	15	36,96,79,100.00	50,19,24,900.00
Interest	16	44,55,69,951.99	32,14,84,888.71
Other Income	17	3,60,98,056.00	18,93,05,185.28
		2,34,49,32,023.01	2,50,32,82,683.16
EXPENDITURE:			
Legal Education Expenses		1,80,25,00,000.00	46,00,00,000.00
Expenses on Council's Activities & Meetings	18	14,22,14,456.00	18,82,54,306.86
Employee Benefit Expenses	19	10,27,69,771.13	8,19,24,767.82
Establishment and Other Expenses	20	3,41,39,067.81	3,51,04,478.27
Examination Expenses	21	2,52,39,795.00	64,800.00
Depreciation	8	38,38,017.60	29,16,791.07
		2,11,07,01,107.54	76,82,65,144.02
Surplus/ (Deficit) During the year			
Transferred to Reserves & Surplus		23,42,30,915.47	1,73,50,17,539.14
Accounting Policies and Notes to Accounts	22		

SCHEDULES 1 TO 22 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS

As per our report of even date annexed with Balance Sheet**For & on behalf of the Bar Council of India****For G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016NSd-
Vice-ChairmanSd-
Principal SecretarySd-
Assistant Secretary
Accounts DepartmentSd-
Partner
M. No. 544129

Place : New Delhi

Date : 24th September, 2025

CASH FLOW STATEMENT*(For The Year Ended March 31, 2025)***(Amount in ₹)**

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
INCOME		
A. Cash Flow from Operating Activities		
Surplus as per Income & Expenditure Account	23,42,30,915.47	1,73,50,17,539.14
Cash flow from operation after adjustment for non cash/operating items:		
Depreciation (net amount charged to Asset Fund)	38,38,017.60	29,16,791.07
Interest Income on Fixed Deposits	(41,60,64,284.64)	(30,98,29,981.00)
Interest on Saving Bank (Enrolment) & Others	(2,77,42,826.41)	(1,06,49,655.44)
Interest on Loans & Advances given to staff	(4,26,426.93)	(4,22,572.27)
Operating Surplus before Working Capital & Funds Changes Increase/(Decrease) in Current Assets & Current Liabilities and Earmarked Fund Balances	(20,61,64,604.91)	1,41,70,32,121.50
(Increase)/ Decrease in Loans & Advances	18,44,009.81	1,49,64,061.00
(Increase)/ Decrease in Receivables	11,20,223.61	(3,24,20,437.56)
(Increase)/ Decrease in Interest Accrued	8,28,16,959.76	(4,86,23,696.79)
Increase/ (Decrease) in Current Liabilities & Provisions	(19,68,24,340.20)	(1,97,27,788.08)
(Increase)/ Decrease in Current Assets	0.00	2,91,07,219.60
Net Cash from/used in (-) Operating Activities	(31,72,07,751.93)	1,36,03,31,479.67
B. Cash Flow from Investing Activities		
Interest Income on Fixed Deposits	41,60,64,284.64	30,98,29,981.00
Interest on Saving Bank (Enrolment) & Others	2,77,42,826.41	1,06,49,655.44
Interest on Loans & Advances given to staff	4,26,426.02	4,22,572.27
Sale of Tangible Assets	3,00,000.00	0.00
Purchase of Tangible Assets	(64,07,656.00)	17,84,296.00
Increase in Non - current Liabilities	50,90,45,056.20	(33,01,00,000.00)
Investments:		
i) Investment Against Earmarked Fund:		
(Increase)/ Decrease in Welfare Fund Investments	(5,31,75,298.00)	(1,98,57,903.20)
(Increase)/ Decrease in Provident Fund Investments	(1,79,407.00)	(43,90,583.60)
(Increase)/ Decrease in Gratuity Fund Investments	(18,76,639.32)	(33,04,761.68)
(Increase)/ Decrease in Pension Fund Investments	(3,95,35,184.76)	(1,05,53,595.77)
(Increase)/ Decrease in Legal Education Investments	5,04,46,186.50	(1,63,37,903.45)
Increase in Investments For Security Deposit From Law Colleges Encashment of Investment	(28,41,06,780.84)	(1,28,11,487.44)
AIBE and BCI	(9,49,84,461.86)	14,65,73,583.99
ii) Other Investments	(24,96,36,327.68)	(1,46,56,63,967.68)
Net Cash from/used in (-) Investing Activities	27,41,23,024.31	(1,39,37,60,114.12)

PARTICULARS	(Amount in ₹)	
	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
C. Cash Flow from Financing Activities		
Increase/(Decrease) in Welfare Fund(Net)	5,31,75,298.00	1,98,57,903.20
Increase/(Decrease) in Provident Fund (Net)	1,79,407.00	43,90,583.23
Increase/(Decrease) in Gratuity Fund (Net)	18,76,639.32	33,04,761.68
Increase/(Decrease) in Pension Fund (Net)	3,95,35,184.76	1,05,53,594.77
Net Cash generated from/used(-) in Financing Activities	9,47,66,529.08	3,81,06,842.88
Net increase/decrease(-) in cash and cash equivalents (A+B+C)	5,16,81,801.46	46,78,208.43
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year (Opening Balance)	38,59,41,971.43	38,12,63,763.00
Cash and Cash Equivalents at the end of the year (Closing Balance)	43,76,23,772.89	38,59,41,971.43
Components of Cash and Cash equivalents:		
Cash in hand	3,30,867.00	55,485.00
Balances with scheduled banks in Current Account and Savings Account	43,72,92,905.89	38,58,86,486.43
TOTAL	43,76,23,772.89	38,59,41,971.43

The above cash flow statement has been prepared under Indirect Method as set out in AS-3 issued by the ICAI

SCHEDULES 1 TO 22 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS

As per our report of even date annexed with Balance Sheet

For & on behalf of the Bar Council of India

For **G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016N

Sd-
Vice-Chairman

Sd-
Principal Secretary

Sd-
Assistant Secretary
Accounts Department

Sd-
Partner
M. No. 544129

Place : New Delhi

Date : 24th September, 2025

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

(For the Year Ended March 31, 2025)

Receipts	Amount (₹)	Payments	Amount (₹)
Opening Balance:		Current Assets & Liabilities	
Cash in Hand	55,485.00	Investment in Fixed Deposits	2,26,03,13,553.00
Cash at Bank	38,58,86,487.43	Loans and Advances	2,76,18,532.00
		Pension Fund Investment	3,00,52,785.00
Current Assets & Liabilities		Sundry Debtors Welfare Fund	30,49,380.00
Fixed Deposit Matured	1,99,83,74,060.62	Provident Fund Investment	13,68,796.00
Security Deposit	78,20,50,056.20	Duties & Taxes	64,56,241.00
Sundry Debtors W.F.	30,99,380.00	Gratuity Fund Investment	31,08,491.00
D.C. Deposits fees	20,000.00	Purchase of Fixed Assets	64,07,656.00
TDS Recoverable	2,03,10,432.99	Sundry Creditors- State Bar	
Sale of Fixed Assets	3,00,000.00	Council of India	22,37,30,995.00
		Prepaid Expenses	39,178.00
Direct Income		Audit Fee Payable	3,51,000.00
Inspection Fees	1,02,60,59,066.38	Direct Expenses	
AIBE Share	36,96,79,100.00	Travelling	9,95,11,106.00
Portal Registration fees	3,49,40,725.00	BCI International Conference	37,91,680.00
LE Forms- Application Fees	4,64,64,805.64	Employee Benefit Expenses	4,66,01,870.24
LE Regularisation Fees from Law Colleges	8,92,60,000.00	Legal Education Expense	1,80,25,00,000.00
Foreign Examination Test Fees	48,24,200.00	Seminar & Conference	40,00,000.00
Enrolment Fees	15,84,097.78	Printing & Stationery	1,05,14,281.00
Disciplinary Proceeding Fees	13,93,000.00	Telephone Expenses	19,09,590.00
Resumption of Practice Fees	2,86,550.00	Indirect Expense	
Interest & Other Receipts		Conveyance	26,74,257.00
Enrolment fees – States	3,45,67,446.78	Contribution	18,00,000.00
Interest on FDR	5,53,57,031.67	Water & Electricity	42,53,209.00
Interest on Saving States	85,20,981.41	Provident Fund Contribution A/C	57,46,047.00
Interest Accrued	11,69,95,727.05	Court Proceedings	47,82,907.00
Miscellaneous Income	5,28,684.00	Leave Encashment	53,28,613.00
Interest on Saving Bank A/C	1,92,21,845.00	Repair & Maintenance	14,25,597.00
Transfer Fees	50,16,646.00	Car Expense	5,02,880.00
Interest on Income Tax Refund	13,36,414.01	Miscellaneous Expenses	14,79,760.43
Revision Fees	6,97,965.00	Felicitation Expenses	58,41,436.00
Journal Subscription (BCIT Pearl First)	16,200.00	Postage & Telegram	13,91,689.00
Process Charges	1,18,000.00	Office Expenses	3,43,519.00
L.E. Rules	16,500.00	Professional Charges	2,22,200.00
RTI Fees	6,410.00	Leave Travel Concession	1,85,755.00
Uniform Identity Number	55,870.00	Security Charges	5,21,560.00
		Advertisement & Gazette Notification	1,80,960.00
		Bank Charges - States	4,17,140.54

Receipts	Amount (₹)	Payments	Amount (₹)
		Refreshment	3,90,593.00
		Insurance	2,45,081.00
		Municipal Tax	1,72,612.00
		Subscription to IIC	1,16,820.00
		Bank Charges	31,367.86
		Uniform Expenses	22,871.00
		Periodicals & Journal	14,461.00
		Interest on TDS	2,925.00
		Closing Balance:	
		Cash in Hand	3,30,867.00
		Cash at Bank	43,72,92,905.89
Total Receipt	5,00,70,43,167.96	Total Payment	5,00,70,43,167.96

As per our report of even date annexed with Balance Sheet

For & on behalf of the Bar Council of India

For **G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016N

Sd-
Vice-Chairman

Sd-
Principal Secretary

Sd-
Assistant Secretary
Accounts Department

Sd-
Partner
M. No. 544129

Place : New Delhi

Date : 24th September, 2025

DETAILS TO SCHEDULE

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Security Deposit & Advance Fees		
Security Deposit AFF L.E	1,18,12,00,056.20	39,91,50,000.00
Security Deposit (AIR Pvt. Ltd.)	80,00,000.00	80,00,000.00
Earnest Money (AIR Pvt. Ltd.)	0.00	1,00,000.00
	1,18,92,00,056.20	40,72,50,000.00
Other Payable		
Welfare Fund	1,00,000.00	50,000.00
G.K. Kedia	140.00	0.00
	1,00,140.00	50,000.00
Balance of Saving Bank A/c with Bar council		
Canara Bank-6816	3,24,63,794.00	6,24,60,172.30
Canara Bank 4273	90,13,314.00	1,09,91,111.00
Canara Bank-1050	1,04,39,477.55	1,01,45,695.79
UCO Bank -132	26,40,378.84	19,56,296.06
Canara Bank 06781	9,46,567.02	9,15,534.02
SBI-8024 (AIBE)	3,99,79,408.35	5,96,461.35
HDFC- 0680(AIBE)	5,03,701.00	5,03,733.00
Canara Bank-0239 (Building Grants)	2,47,104.28	2,47,104.28
Canara Bank-1065 (Legal Education)	3,49,747.09	1,66,150.09
Canara Bank-0258 (DLE)	1,28,464.00	1,28,464.00
Canara Bank-5591	44,025.62	42,582.62
Canara Bank – 0296	22,932.00	22,932.00
Indian Postal	3,880.00	9,072.00
SBI-8428 (AIBE)	7,404.20	8,053.20
Canara Bank -7588	1,38,294.00	0.00
	9,69,28,491.95	8,81,93,361.71
Security Deposit – Asset		
Security Deposit – University	1,02,00,000.00	1,02,00,000.00
Security Deposits for Electricity & Others	12,30,417.00	12,30,417.00
Security Deposit – Hostel	3,15,000.00	3,15,000.00
	1,17,45,417.00	1,17,45,417.00

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
TDS Receivables/ Income Tax Refund		
TDS Receivable F.Y.24-25	1,12,44,601.02	0.00
TDS Receivable F.Y.23-24	0.00	1,07,83,058.00
TDS Receivable F.Y.22-23	0.00	95,27,374.99
TDS Receivable F.Y.19-20	48,41,219.00	48,41,219.00
TDS Receivable F.Y.18-19	8,85,854.00	8,85,854.00
TDS Receivable F.Y.17-18	14,27,556.73	14,27,556.73
TDS Receivable F.Y.16-17	9,55,033.00	9,55,033.00
TDS Receivable F.Y.15-16	21,60,578.00	21,60,578.00
Income Tax Refund (F.Y. 2015-16)	50,26,400.00	50,26,400.00
	2,65,41,241.75	3,56,07,073.72
Other Receivable -		
BCIT Pearl First	2,54,79,604.00	1,71,74,604.00
BCIT	63,12,497.00	56,50,307.00
IIULER	5,450.00	5,450.00
Advance Salary	0.00	5,86,420.64
Unconsumed TDS	4,025.00	0.00
Advance Rent- JJJK Trust	0.00	3,60,836.00
Amount Recoverable- JJJK Trust	0.00	69,086.00
	3,18,01,576.00	2,38,46,703.64

SCHEDULE—1**CAPITAL FUND**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	As At March 31, 2025	As At March 31, 2024
Corpus Fund		
Balance as per Last Balance Sheet	1,07,30,445.45	1,07,30,445.45
Add: Corpus Donation Received during the year	0.00	0.00
Less: Amount Utilised during the year	0.00	0.00
Total	1,07,30,445.45	1,07,30,445.45

SCHEDULE—2**RESERVE & SURPLUS**

Opening Surplus as per Last Balance Sheet	1,48,11,65,604.81	1,14,31,06,590.67
Add: Surplus For The Year as per Income & Expenditure A/C	23,42,30,915.47	1,73,50,17,539.14
Add : Transfer from Special Fund during the year	1,80,25,00,000.00	45,30,41,475.00
Less : Transfer to Special Fund, Form 10 filed during the year	(1,75,50,00,000.00)	(1,85,00,00,000.00)
Total (A)	1,76,28,96,520.28	1,48,11,65,604.81
Special Fund		
Opening Balance	4,49,95,00,000.00	3,10,25,41,475.00
Add: Received During the Year, transferred from Reserve & Surplus	1,75,50,00,000.00	1,85,00,00,000.00
Less: Amount utilised during the year, transferred to Reserve & Surplus	(1,80,25,00,000.00)	(45,30,41,475.00)
Total (B)	4,45,20,00,000.00	4,49,95,00,000.00
Total (A+B)	6,21,48,96,523.28	5,98,06,65,606.00

SCHEDULE—3**ASSETS FUND (GRANTS-IN-AID)**

Opening Balance	73,04,049.73	81,89,743.95
Less: Amount of Depreciation for the year Transfer to Income & Expenditure A/c	(7,93,355.10)	(8,85,695.22)
Total	65,10,694.64	73,04,048.73

SCHEDULE—4

EARMARKED FUNDS

(Amount in ₹)

PARTICULARS	As At March 31, 2025	As At March 31, 2024
(A) Welfare Fund		
Opening Balance	32,81,58,920.08	30,39,04,108.08
Add:		
Contribution from Advocate	19,17,003.00	29,84,701.00
Contribution from State Bar Council	3,08,85,476.00	98,73,645.00
Interest on FDR	1,95,66,305.83	1,71,31,326.00
Interest on Savings Bank A/c	3,85,200.00	1,86,830.00
	<u>38,09,12,904.91</u>	<u>33,40,80,610.08</u>
Less:-		
Assistance to Advocates	(26,35,000.00)	(59,12,000.00)
Due to BCI - Provident Fund	4,79,112.00	0.00
Other Expenses	0.00	(9,690.00)
Total (A)	<u>37,87,57,016.91</u>	<u>32,81,58,920.08</u>
(B) Provident Fund		
Opening Balance	5,88,94,846.60	5,10,57,278.95
Add:		
Employer Contribution (erstwhile referred as "Employees Compulsory Subscription")	29,63,752.00	29,21,484.00
Employees Contribution (erstwhile referred as "Employees Voluntary Subscription")	23,49,900.00	25,16,000.00
Interest Allocated	30,95,078.90	29,32,567.23
Shortfall in PF Interest Contribution	14,16,075.29	13,68,796.42
	<u>6,87,19,652.79</u>	<u>6,07,96,126.60</u>
Less:		
Permanent Withdrawal	(1,12,56,917.00)	(19,01,280.00)
Other expense	(125.00)	0.00
Total (B)	<u>5,74,62,610.79</u>	<u>5,88,94,846.60</u>
(C) Gratuity Fund (PBO & Interest Obligation)		
Opening Balance (PBO & Interest Obligation)	2,78,65,553.10	2,35,50,808.10
Add:		
Contribution Received from the Council	51,87,537.00	31,08,491.00
Interest on FDR	13,50,762.62	11,34,120.00
Interest on Saving Bank A/c	85,018.00	72,134.00
	<u>3,44,88,870.72</u>	<u>2,78,65,553.10</u>
Less:		
Other Expenses	39,85,011.02	0.00
Total (C)	<u>3,05,03,859.70</u>	<u>2,78,65,553.10</u>
(D) Pension Fund (PBO)		
Opening Balance (PBO & Interest Obligation)	19,54,74,769.21	16,88,63,916.42
Add:		
Contribution/Provision	30,50,544.00	1,32,63,432.00
Interest on FDR	1,22,49,140.40	76,173.00
Interest on Saving Bank A/c	2,63,447.00	1,04,29,806.79
	<u>21,10,37,900.61</u>	<u>19,26,33,328.21</u>
Less:		
Reversal of Excess/Shortfall PBO	2,88,70,350.00	1,00,52,785.00
Payments to Ex-Staff / Dependents, Bank Charges & TDS (Last Year)	(90,41,702.00)	(72,11,344.00)
Total (D)	<u>23,08,66,548.61</u>	<u>19,54,74,769.21</u>
Grand Total (A+B+C+D)	<u>69,75,90,036.01</u>	<u>61,03,94,088.89</u>

SCHEDULE—5**OTHER LONG TERM LIABILITIES****(Amount in ₹)**

PARTICULARS	As At	As At
	March 31, 2025	March 31, 2024
	R	R
Security Deposits	1,18,92,00,056.20	40,72,50,000.00
Inspection Fees Received in Advance	0.00	27,29,05,000.00
Total	1,18,92,00,056.20	68,01,55,000.00

SCHEDULE—6**OTHER CURRENT LIABILITIES**

(A) Expenses Payable		
Audit Fees Payable	3,78,000.00	3,50,500.00
Other Payable	1,00,140.00	50,000.00
AIBE (STBC)	0.00	19,84,91,200.00
Total (A)	4,78,140.00	19,88,91,700.00
(B) Statutory Dues		
Pension Fund Payable (Acturial)	87,49,368.68	99,31,804.00
Due to Welfare Fund Payable (TDS)	39,66,143.33	34,08,316.65
Gratuity Fund Contribution Payable (Acturial)	51,87,537.00	31,08,491.00
Provident Fund Shortfall Contribution	14,16,074.78	13,68,795.90
Due to Pension Fund (TDS)	4,66,985.00	1,33,860.00
Due to Provident Fund (TDS)	2,05,469.28	51,319.72
Due to Gratuity Fund (TDS)	12,907.00	0.00
TDS Payable	35,000.00	7,702.00
Total (B)	2,00,39,485.07	1,80,10,289.27
(C) Other Payable		
Disciplinary Committee Deposit Fees	33,99,027.65	33,79,027.65
Advance Fee for Uniform Identification Numbers	0.00	21,65,300.00
Total (C)	33,99,027.65	55,44,327.65
Grand Total (A+B+C)	2,39,16,652.72	22,24,46,316.92

SCHEDULE—7**SHORT TERM PROVISIONS**

Provision for Leave Encashment	1,35,26,844.00	1,18,21,520.00
	1,35,26,844.00	1,18,21,520.00

SCHEDULE — 8
FIXED ASSETS - OWN FUNDS

(Amount in ₹)													
S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
			As at 1-4-2024 (1)	Additions		Sale/Deletions/ adjustment (3)	As at 31-3-2025 (4) = (1) + (2) - (3)	As at 1-4-2024 (5)	Depreciation For the year 2024-25 (6)	Depreciated Adjusted (7)	As at 31-3-2025 (8) = (5) + (6) - (7)	As at 31-3-2025 (9) = (4) - (8)	As at 31-3-2024 (10) (1)-(5)
				Before 3-10-2024	After 3-10-2024								
1	Land		42,030	0.00	0.00	0.00	42,030	0.00	0.00	0.00	0.00	42,030.00	42,030
2	Building	10%	2,07,52,598	0.00	0.00	0.00	2,07,52,598	1,82,78,506	2,47,409.22	0.00	1,85,25,915	22,26,683.95	24,74,092
3	Rental -Building Renovation	10%	7,68,110	0.00	0.00	0.00	7,68,110	4,16,991	35,111.93	0.00	4,52,103	3,16,007.41	3,51,119
4	Lift	15%	27,40,362	0.00	0.00	0.00	27,40,362	23,00,078	66,042.59	0.00	23,66,121	3,74,241.32	4,40,284
5	Furniture & Fixtures	10%	74,81,290	25,724.00	1,03,330	0.00	76,10,344	45,31,019	3,02,766.02	0.00	48,33,785	27,76,559.14	29,50,271
6	Electrical Fittings	10%	11,95,596	0.00	0.00	0.00	11,95,596	9,12,013	28,358.33	0.00	9,40,371	2,55,225.97	2,83,583
7	Office Equipments	15%	29,00,018	6,535	14,45,877	0.00	43,52,430	16,36,295	2,98,979.52	0.00	19,35,274	24,17,155.77	12,63,723
8	Air Conditioner / Cooler	15%	52,54,576	1,69,482.00	0.00	0.00	54,24,058	43,82,368	1,56,253.51	0.00	45,38,621	8,85,436.56	8,72,208
9	Refrigerator / Gas	15%	34,480	0.00	0.00	0.00	34,480	32,957	228.44	0.00	33,185	1,294.51	1,523
10	Office Cycles	15%	16,006	0.00	0.00	0.00	16,006	13,213	418.98	0.00	13,632	2,374.23	2,793
11	Books & Publications	40%	3,67,012	5,23,551.98	26,031.00	0.00	9,16,595	3,09,504	2,37,630.15	0.00	5,47,134	3,69,460.73	57,507.90
12	Computers / Laptops	40%	1,08,49,008	18,66,951	15,25,389	0.00	1,42,41,348	88,82,025	1,83,8,651.36	0.00	1,07,20,676	35,20,671.54	19,66,983
13	Water Cooler	15%	1,10,948	0.00	0.00	0.00	1,10,948	1,03,818	1,069.53	0.00	1,04,887	6,060.68	7,130
14	Transformer	15%	10,69,846	0.00	33,040.00	0.00	11,02,886	10,51,812	5,183.14	0.00	10,56,995	45,891.15	18,034
15	Innova Car	15%	60,44,854	0.00	0.00	3,00,000.00	57,44,854	36,28,866	3,17,398.18	0.00	39,46,264	17,98,589.69	24,15,988
16	Fire Lighting Equipment	15%	25,94,475	0.00	0.00	0.00	25,94,475	20,11,319	87,473.33	0.00	20,98,793	4,95,682.21	5,83,156
17	CCTV / LCD / Digital Camera	15%	10,80,727		0.00	0.00	10,80,727	5,21,397	83,899.44	0.00	6,05,297	4,75,430.18	5,59,330
18	Genset	15%	10,67,979	0.00	0.00	0.00	10,67,979	7,95,542	40,865.53	0.00	8,36,408	2,31,571.31	2,72,437
19	Gysers	15%	19,000	0.00	0.00	0.00	19,000	2,138	2,529.38	0.00	4,667	14,334.13	16,864
20	Car Ertiga	15%		0.00	11,47,291.00	0.00	11,47,291		86,046.83	0.00	86,047	10,61,244.18	
21	LED TV	15%	-	7,808.00	7,080.00	0.00	14,888	-	1,702.20	0.00	1,702	13,186.80	-
	TOTAL (A)		6,43,88,915	26,00,052	42,88,038	3,00,000.00	7,09,77,005	4,98,09,860	38,38,018	0.00	5,36,47,878	1,73,29,131.43	1,45,79,056
	Previous Year (A)		6,26,04,620	6,49,472	11,34,823	—	6,43,88,915	4,68,93,069	29,16,791	0.00	4,98,09,859.95	1,45,79,056	1,57,11,555

SCHEDULE — 8A

FIXED ASSETS - (GRANT-IN-AID)

(Amount in ₹)

S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
			As at 1-4-2024 (1)	Additions		Sale/Deletions/ adjustment (3)	As at 31-3-2025 (4) = (1) + (2) - (3)	As at 1-4-2024 (5)	Depreciation For the year 2024-25 (6)	Depreciated Adjusted (7)	As at 31-3-2025 (8) = (5) + (6) - (7)	As at 31-3-2025 (9) = (4) - (8)	As at 31-3-2024 (10)
				Before 3-10-2024	After 3-10-2024								
1	Building Renovation	10%	2,26,65,982	0.00	0.00	0.00	2,26,65,982	1,66,23,066	6,04,292	0.00	1,72,27,358	54,38,624.0	60,42,916
2	Furniture & Fittings	10%	1,84,625	0.00	0.00	0.00	1,84,625	1,55,347	2,928	0.00	1,58,275	26,349.8	29,278
3	Air Conditioner/Cooler	15%	32,95,129	0.00	0.00	0.00	32,95,129	28,68,910	63,933	0.00	29,32,843	3,62,286.2	4,26,219
4	Computers	40%	9,78,674	0.00	0.00	0.00	9,78,674	9,78,625	20	0.00	9,78,644	29.5	49
5	Electrical Fitting	10%	45,53,841	0.00	0.00	0.00	45,53,841	33,32,009	1,22,183	0.00	34,54,192	10,99,651.2	12,21,834
	TOTAL (B)		3,16,78,251	0.00	0.00	0.00	3,16,78,251	2,39,57,957	7,93,355	0.00	2,47,51,312	69,26,940.69	77,20,296
	Previous Year (B)		3,19,65,155	0.00	0.00	0.00	3,19,65,155.00	2,33,59,166	8,85,695	0.00	2,42,44,861.21	77,20,296	86,05,989
	TOTAL (A + B)		9,60,67,166		68,88,090	3,00,000.00	10,26,55,256	7,37,67,817	46,31,373	0.00	7,83,99,190	2,42,56,072	2,22,99,352
	Previous Year (A+B)		9,45,69,775		17,84,295	—	9,63,54,070	7,02,52,235	38,02,486	0.00	7,40,54,721	2,22,99,351	2,43,17,544

SCHEDULE—9
INVESTMENTS

(Amount in ₹)

PARTICULARS	As At March 31, 2025	As At March 31, 2024
(A) Against Earmarked Fund		
(I) Welfare Fund Investments		
Fixed Deposit with UCO Bank	21,06,77,277.00	16,49,18,423.00
Fixed Deposit with Canara Bank	8,01,71,733.80	7,43,37,186.80
Fixed Deposit with State Bank of India	3,18,75,342.00	3,18,75,342.00
Fixed Deposit with Indian Bank	1,80,45,115.00	1,70,06,287.00
Fixed Deposit with Central Bank	91,01,418.00	85,58,349.00
Accrued Interest on FDRs	1,62,35,215.94	2,09,02,034.79
Balance in UCO Bank-Savings A/C.9363	85,69,772.25	71,37,981.25
Cash Balance	15,000.00	15,000.00
	37,46,90,873.99	32,47,50,603.84
Add: Amount receivable from BCI	40,66,143.33	34,08,316.65
Total (I)	37,87,57,017.32	32,81,58,920.49
(II) Provident Fund Investment		
Fixed Deposit with UCO Bank	3,77,22,368.00	3,82,87,118.00
Fixed Deposit with Canara Bank	1,09,85,941.07	1,02,41,784.07
Special Deposit with UCO Bank	11,90,217.00	11,90,217.00
Accrued Interest on FDRs	26,98,616.66	31,90,333.32
Balance in UCO Bank-Savings A/C 261025	25,85,190.54	39,77,262.54
	5,51,82,333.27	5,68,86,714.93
Add: Provident Fund Loan	(3,05,087.81)	1,03,308.29
Add: Amount Receivable from BCI (Shortfall in Interest & TDS Receivable)	16,21,544.13	14,20,115.28
Add: Amount Receivable from Welfare Fund	9,59,020.00	4,79,908.00
Add: Cash Balance	4,800.00	4,800.00
Total (II)	5,74,62,609.59	5,88,94,846.50
(III) Gratuity Fund Investment		
Fixed Deposit with UCO Bank	2,04,79,082.00	1,87,47,853.00
Fixed Deposit with Canara Bank	21,68,978.32	20,23,568.00
Special Deposit with UCO Bank	3,18,433.00	3,18,433.00
Accrued Interest on FDRs	13,72,477.92	14,41,739.32
Balance In UCO Bank-Savings A/C 440	9,64,444.58	22,25,468.58
	2,53,03,415.82	2,47,57,061.90
Add: Amount Receivable from BCI (Acturial and TDS Receivable)	52,00,444.00	31,08,491.00
Total (III)	3,05,03,859.82	2,78,65,552.90
(IV) Pension Fund Investment		
Fixed Deposit with Canara Bank	17,12,88,550.20	13,51,78,956.44
Fixed Deposit with UCO Bank	2,86,78,250.00	2,58,30,475.00
Fixed Deposit with Central Bank	96,83,774.00	91,05,958.00
Accrued Interest on FDRs	87,90,212.31	94,09,381.67
Balance in Canara Bank- Savings A/C. 19116	32,09,407.06	58,84,333.06
	22,16,50,193.57	18,54,09,104.17
Add: Amount Receivable from BCI (Acturial and TDS Receivable)	92,16,354.68	1,00,65,665.08
Total (IV)	23,08,66,548.25	19,54,74,769.25
Total (A) = [(I)+(II)+(III)+(IV)]	69,75,90,034.98	61,03,94,089.14

PARTICULARS	(Amount in ₹)	
	As At March 31, 2025	As At March 31, 2024
(B) Against Earmarked Liabilities		
(I) For Legal Education (Inspection Fees Received in Advance)		
Canara Bank	8,00,76,587.36	6,86,08,808.56
State Bank of India	4,20,52,955.70	3,93,66,120.00
Central Bank	0.00	71,76,019.00
UCO India	0.00	4,29,87,406.00
Indian Bank	0.00	1,44,37,376.00
	12,21,29,543.06	17,25,75,729.56
Add/(Less): Unallocated to Legal Education FDR Investment (Sch-10)	(12,21,29,543.06)	28,03,29,270.44
Total (I)	0.00	45,29,05,000.00
(II) For Security Deposit from Law Colleges (Affiliation)		
Canara Bank	47,28,50,474.23	20,22,82,684.39
UCO Bank	8,76,53,911.00	7,86,80,765.00
Indian Bank	3,17,18,629.00	2,82,86,429.00
State Bank of India	2,28,70,575.00	2,28,70,575.00
Central Bank	1,89,99,062.00	1,78,65,417.00
	63,40,92,651.23	34,99,85,870.39
Add/(Less): Unallocated to Security Deposit from Law Colleges (Sch-10)	54,66,07,404.97	4,91,64,129.61
Total (II)	1,18,07,00,056.20	39,91,50,000.00
Total(B) = [(I)+(II)]	1,18,07,00,056.20	85,20,55,000.00
Grand Total (A)+(B)	1,87,82,90,091.18	1,46,24,49,089.14

SCHEDULE—10**OTHER INVESTMENTS**

Fixed Deposits with Banks for the Bar Council of India		
Canara Bank	4,64,98,40,246.78	4,08,70,85,723.72
State Bank of India	60,74,42,390.00	78,21,69,207.00
UCO Bank	57,99,82,001.00	61,01,88,849.00
Indian Bank	5,20,16,212.00	5,40,96,569.00
Central Bank	0.00	1,11,19,710.00
	5,88,92,80,849.78	5,54,46,60,058.72
Add/(Less) : Transfer to FDR Against Legal Education (Sch-9B)	12,21,29,543.06	(4,91,64,129.61)
Add/(Less): Transfer to FDR Against Security Deposit (Sch-9B)	(54,66,07,404.97)	(28,03,29,270.44)
Total	5,46,48,02,986.70	5,21,51,66,659.02

SCHEDULE—11**CASH & CASH EQUIVALENTS****(Amount in ₹)**

PARTICULARS	Year ended	Year ended
	March 31, 2025	March 31, 2024
Cash Balances	3,30,867.00	55,485.00
Bank Balances		
- Balance of Saving Bank A/c with State Bar Councils	34,03,64,413.94	29,76,93,125.72
- Balance of Saving Bank A/c with Bar Council	9,69,28,491.95	8,81,93,361.71
Total	43,76,23,772.89	38,59,41,971.43

SCHEDULE—12**LOANS AND ADVANCES**

Advances Recoverable	1,43,18,019.00	1,36,09,403.00
Loan to Memebrs	8,42,165.00	13,59,803.00
Loan to Staff	99,36,834.22	1,19,71,822.03
Security Deposit	1,17,45,417.00	1,17,45,417.00
Total	3,68,42,435.22	3,86,86,445.03

SCHEDULE—13**OTHER CURRENT ASSETS**

(A) Interest Accrued on Investments	25,80,37,721.24	34,08,54,681.00
Total (A)	25,80,37,721.24	34,08,54,681.00
(B) Stock of Books at Cost (As Certified by the Management)	0.00	4,80,433.98
Total (B)	0.00	4,80,433.98
(C) Amount Receivable		
TDS Receivables/ Income Tax Refund	2,65,41,241.75	3,56,07,073.72
Other Receivable	3,18,01,576.00	2,38,46,703.64
From State Bar Councils	81,314.20	81,314.20
From RBI	54,863.00	54,863.00
Prepaid Expenses	39,178.00	48,442.00
Total (C)	5,85,18,172.95	5,96,38,396.56
Grand Total (A+B+C)	31,65,55,894.19	40,09,73,510.54

SCHEDULE—14**ENROLMENT AND OTHER FEES****(Amount in ₹)**

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
(A) Fees From Advocates		
Enrolment Fees	3,61,51,510.00	4,88,65,278.04
Membership Transfer Fees	50,16,648.00	24,55,350.00
Resumption of Practice Fees	2,86,550.00	2,38,000.00
Total (A)	4,14,54,708.00	5,15,58,628.04
(B) Other Fees		
Legal Education Regularisation Fees From Law Colleges	9,08,60,000.00	3,16,50,500.00
Application Fees for Legal Education Forms	4,67,19,805.64	7,35,60,499.09
Foreign Examination Test Fees	48,24,200.00	42,00,000.00
Unique Identity Number	22,21,170.00	0.00
Disciplinary Proceeding Fees	13,93,000.00	8,32,945.00
Examination Revision Fees	6,97,965.00	3,56,075.00
Total (B)	14,67,16,140.64	11,06,00,019.09
Grand Total (A)+(B)	18,81,70,848.64	16,21,58,647.13

SCHEDULE—15**EXAMINATION FEES**

All India Bar Examination Fees-XIX	36,96,79,100.00	0.00
All India Bar Examination Fees-XVIII	0.00	22,94,28,700.00
All India Bar Examination Fees-XVII	0.00	27,24,96,200.00
Total	36,96,79,100.00	50,19,24,900.00

SCHEDULE—16**INTEREST**

Interest on Fixed Deposits	41,60,64,284.64	30,98,29,981.00
Interest on Savings Bank A/c	1,92,21,845.00	26,92,785.00
Interest on Savings Bank A/c (States- Enrollment)	85,20,981.41	79,56,870.44
Interest on Income Tax Refund	13,36,414.01	5,82,680.00
Interest on Loans & Advances (Staff)	4,26,426.93	4,22,572.27
Total	44,55,69,951.99	32,14,84,888.71

SCHEDULE—17**OTHER INCOME**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Portal Registration Charges	3,49,40,725.00	13,50,64,624.58
Other Miscellaneous Income	9,92,603.00	51,81,427.98
Process Charges	1,18,000.00	64,000.00
HRA Recovery	46,728.00	0.00
Souvenir Artciles Advertisement	0.00	4,83,24,000.00
Registration Fees	0.00	6,58,000.00
Balance Written off	0.00	13,132.72
Total	3,60,98,056.00	18,93,05,185.28

SCHEDULE—18**EXPENSES ON COUNCIL'S ACTIVITIES & MEETINGS**

(A) Travelling & Meeting Expenditure		
Travelling – Council	4,78,31,947.00	5,62,75,362.00
Foreign Travel expenditure	2,50,28,242.00	2,37,41,580.00
Travelling - Disciplinary Committee Meeting	1,51,31,996.00	1,22,73,474.00
Meeting Expenses	1,44,81,004.00	1,58,45,652.74
Travelling – Inspection	1,28,15,753.00	71,51,571.00
Travelling Council – Goa	50,55,642.00	60,42,623.00
Travelling - Legal Education Meeting	36,89,115.00	21,07,046.00
Guest Room Expenditure	23,89,891.00	12,63,144.00
Travelling - Monitoring Committee	95,930.00	0.00
Total (A)	12,65,19,520.00	12,47,00,452.74
(B) Other Expenses		
Conference, Seminar & Workshop Expenses	79,26,680.00	5,75,05,684.00
Felicitaton Expenses	58,51,436.00	18,55,252.00
Contribution/Financial Assistance to State Bar Council	18,00,000.00	38,95,850.00
Subscription to IBA/IIC	1,16,820.00	2,97,068.12
Total (B)	1,56,94,936.00	6,35,53,854.12
Grand Total (A+B)	14,22,14,456.00	18,82,54,306.86

SCHEDULE—19**EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Salaries Expenses	5,06,58,259.00	4,59,53,065.00
Council Contribution to Pension Fund A/C	3,19,20,893.60	2,33,16,217.00
Council Contribution to Gratuity Fund A/C	51,87,537.00	31,08,491.00
Leave Encashment	70,33,937.00	22,43,061.00
Medical Allowance	21,78,692.00	20,74,711.00
Mediclaime Insurance	12,38,228.24	13,74,670.40
Council Contribution to Provident Fund A/C	14,16,075.29	13,68,796.42
Children Education Allowance	12,54,594.00	9,71,686.00
Assistant Allowance	9,35,800.00	9,38,400.00
Leave Travel Concession	1,85,755.00	5,75,670.00
Special Compensatory Allowance	1,40,000.00	0.00
Stipend	6,20,000.00	0.00
Total	10,27,69,771.13	8,19,24,767.82

SCHEDULE—20**ESTABLISHMENT & OTHER EXPENSES**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Printing & Stationery	1,05,14,281.00	18,50,480.00
Legal & Professional Expenses	50,05,107.00	37,27,477.00
Water & Electricity	42,53,209.00	36,27,195.00
Miscellaneous Expenses	38,93,140.51	22,67,541.85
Conveyance	26,79,357.00	57,39,817.00
General Repairs & Maintenance	14,25,597.00	22,42,450.00
Postage, Telegram & Telephone	19,31,590.03	14,18,451.90
University Expenses	11,12,428.00	1,08,22,974.00
Security Charges	5,21,560.00	5,38,670.00
Repair & Maintenance	5,02,880.00	5,24,688.00
Bank Charges	4,48,507.27	3,41,554.52
Auditors Remuneration	4,13,000.00	3,83,500.00
Refreshment	3,90,593.00	2,42,419.00
Office Expense	3,43,519.00	0.00
Insurance Premium	3,32,701.00	1,94,096.00
Advertisement Expenses	1,80,960.00	3,71,764.00
Rates & Taxes	1,72,612.00	1,72,612.00
Periodical & Journal	14,461.00	13,124.00
Interest on TDS	2,925.00	0.00
Legal paper expense	640.00	0.00
Inaugural Ceremony	0.00	5,65,484.00
Server Maintenance Charges	0.00	60,180.00
Total	3,41,39,067.81	3,51,04,478.27

SCHEDULE—21**EXAMINATION EXPENSES**

AIBE Examination Expense XVI	2,52,39,795.00	0.00
Foreign Examination Expenses	0.00	64,800.00
Total	2,52,39,795.00	64,800.00

SCHEDULE—22**ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS**

(As on March 31, 2025)

A GENERAL

The Bar Council of India (“the Council”) is a Statutory Body created under the Advocates Act, 1961(25 of 1961) by the Parliament of India. Bar Council of India having its object the control, supervision, regulation and encouragement of profession of law and regulation of Legal Education in India as notified by the Central Government of India and its income is utilized for, as per Section 7 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961).

The Bar Council of India is registered under Section 12AA of the Income Tax Act, 1961.

B (A) ACCOUNTING POLICIES**1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Financial Statements have been drawn up on historical cost convention and have been prepared in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on accrual basis unless otherwise stated.

2. REVENUE RECOGNITION

Income & expenditure are recognised on cash basis except the following:-

- (a) Present benefit obligation and/or interest component pertaining to special funds *i.e.*, Pension Fund, Provident Fund and Gratuity Fund has been credited to the respective Fund Account on accrual basis.
- (b) **Income from Investment:** Interest on Fixed Deposit is recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

3. GRANT-IN-AID

- (a) Government grants is recognised on a systematic basis in the Income & Expenditure Account over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate. Unutilised amount, if any, is treated as liability as at the year end.
- (b) Government grants related to Specific Fixed Assets are treated as deferred income which is recognised in the account on a systematic and rational basis over the useful life of the assets.

4. FUND

The word “fund” has been used to denote the intention to keep the balances invested ultimately.

(i) Corpus Fund

Corpus Fund represents donations received from Law Colleges and Others and annual surplus/deficit of the Bar Council of India upto 31/03/1999.

(ii) Welfare Fund

Welfare Fund represents contribution received from Advocates in accordance with the Bar Council of India Rules and the same is utilised for Financial Assistance to Advocates.

5. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. For this purpose, cost of acquisition is inclusive of inward freight, duties, taxes and incidental expenses & direct expenses related to acquisition/construction of such assets.

6. DEPRECIATION

Depreciation on Fixed Assets is provided on Written Down Value method at the rates prescribed under the Income Tax Rules.

7. INVESTMENTS

Investments have been classified as 'long term investments' and are carried at cost since all the investments have been held in Fixed Deposits with Scheduled Banks.

8. RETIREMENT BENEFITS

(i) *Pension Fund*

Pension-cum-Family Pension Rules of the Employees of the Bar Council of India, *w.e.f.* 1st April 2002 has been made applicable to the Employees of the Bar Council of India. Accordingly, the "BCI-Contributory Provident Fund" has been discontinued and in its place "Pension Fund" has been introduced. The contribution made earlier by Bar Council of India to Contributory Provident Fund along with accrued interest has been transferred to the Pension Fund.

Pension fund contribution is made on monthly basis at the rate of 12% of Basic Salary with an additional amount of ₹10,000/- per month as per Council decision. However, the accrued liabilities as per actuarial valuation under PVC method is determined as per the provision of notified Accounting Standard (Revised)-15 on Employee Benefit the differential provision/reversal is made at the year end.

(ii) *Gratuity*

The Bar Council of India has maintained a special fund called "Gratuity Fund". Contribution to this fund is made based on the actuarial valuation as per AS-15 of the ICAI. The fund is administered by the Trustees appointed by the Council.

(iii) *G.P.F.*

General Provident Fund Account of the Employees of the Bar Council of India represents the amount of subscription of employees at the applicable rate of the pay together with Voluntary Contribution and accrued interest thereon.

(iv) *Leave Encashment*

The provision for unavailed leave is made on accrual basis by considering the Basic Salary plus Dearness Allowances for 30 days in a year subject to a maximum ceiling of 300 days as per BCI Rules/Central Government Rules.

Further, provision for this fund is made on the basis of actuarial valuation as per AS-15 of the ICAI.

C (B) NOTES TO ACCOUNTS

1. Provident Fund is recognised under Rule 3(1) of the Part -A of the IVth Schedule of the Income Tax Act, 1961 vide letter No.JP-1(6)/63/3332 dated (order No. 1 of 1965-66).
2. Balance of Security Deposit from affiliated Institutions of ₹ 1,18,00,056 are represented by Fixed Deposits with Banks of the same amount as stated at Schedule No. 9B of the Balance Sheet.
3. Previous year figures have been regrouped/reclassified wherever considered necessary.

SCHEDULE 1 TO 22 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS.

As Per our report of even date annexed with Balance Sheet

For & on behalf of Bar Council of India

For **G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016N

Sd-
Vice-Chairman

Sd-
Principal Secretary

Sd-
Assistant Secretary
Accounts Department

Sd-
Partner
M. No. 544129

Place : New Delhi

Date : 24th September, 2025

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./84/2026-27]